

इसे वेबसाइट www.govtpress.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 4]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 24 जनवरी 2025—माघ 4, शक 1946

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

कार्यालय, उज्जैन विकास प्राधिकरण, उज्जैन, मध्यप्रदेश

उज्जैन, दिनांक 15 जनवरी 2025

क्र.15087-TDS-08-UJN-2024.—मध्यप्रदेश राजपत्र प्रकाशन दिनांक 10 जनवरी 2025 में मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 50 की उपधारा (1) के अधीन प्रकाशित अधिसूचना क्र. 15088-TDS-08-UJN-2024 / 55 उज्जैन, दिनांक 06 जनवरी 2025 में सिंहस्थ मेला क्षेत्र नगर विकास योजना 08, सम्मिलित ग्राम मोहनपुरा एवं जियापुरा/उज्जैन में टंकण त्रुटि होने से निम्न संशोधन किये जाते हैं।

संशोधन

- सिंहस्थ मेला क्षेत्र नगर विकास योजना 8 की प्रकाशित अधिसूचना राजपत्र के पेज नम्बर 19 पर अधिसूचना क्र. 15088-TDS-08-UJN-2024 / 55 के स्थान पर अधिसूचना क्र. 15087-TDS-08-UJN-2024 / 55 स्थापित किया जाता है।
- सिंहस्थ मेला क्षेत्र नगर विकास योजना 8 में राजपत्र के पेज नम्बर 22 पर ग्राम मोहनपुरा के सरल क्र. 143 के खसरा कॉलम में टंकण त्रुटि होने से 308 / ikVZj[k gS tks [kkyh gSA के स्थान पर 308 / 3 पार्ट पढ़ा जावे।
- सिंहस्थ मेला क्षेत्र नगर विकास योजना 8 में राजपत्र के पेज नम्बर 39 पर ग्राम कस्बा उज्जैन व जियापुरा के सरल क्र. 184. खसरा कॉलम में टंकण त्रुटि होने से 104@2@1@2 के स्थान पर 104 / 2 / 1 / 2 पढ़ा जावे।
- सिंहस्थ मेला क्षेत्र नगर विकास योजना 8 में राजपत्र के पेज नम्बर 55 पर ग्राम कस्बा उज्जैन व जियापुरा के सरल क्र. 673 के भू-स्वामी के कॉलम में टंकण त्रुटि के कारण भू-स्वामी का कॉलम रिक्त होने से उसमें अब्दलु रजफ, अब्दलु नासीर, अब्दलु शाकीर, शमीमबानो, परवीनबानो पिता अब्दलु रहमान, हुसैनबानो बेवा अब्दलु रहमान, अशोक पिता रामचन्द्र सोलंकी, रीना पति अंकित सोलंकी, दिव्या पति अंशुल सोलंकी, अंशुल पिता अशोक सोलंकी, सेतोष पिता अशोक सोलंकी पढ़े जावे।

5. सिंहस्थ मेला क्षेत्र नगर विकास योजना 8 में राजपत्र के पेज नम्बर 79 पर ग्राम करबा उज्जैन व जियापुरा के सरल क्रं. 1410 के भू-स्वामी के कॉलम में टंकण त्रुटि होने से 'kkfey u-2959@2 के स्थान पर नं. 2959 / 2 में शामिल पढ़ा जावे।
6. सिंहस्थ मेला क्षेत्र नगर विकास योजना 8 में राजपत्र के पेज नम्बर 97 पर ग्राम करबा उज्जैन व जियापुरा (शासकीय भूमि) के सरल क्रं. 82, 83, 84 में ग्राम कॉलम में ft;kiqjk के स्थान पर ग्राम का नाम जियापुरा पढ़ा जावे।

(G-246)

संदीप कुमार सोनी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी।

कार्यालय, उज्जैन विकास प्राधिकरण, उज्जैन, मध्यप्रदेश

क्र.15088-TDS-09-UJN-2024-228.

उज्जैन, दिनांक 15 जनवरी 2025

मध्य प्रदेश राजपत्र प्रकाशन दिनांक 10 जनवरी 2025 में मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 50 की उपधारा (1) के अधीन प्रकाशित अधिसूचना क्रं. 15088-TDS-09-UJN-2024/61 उज्जैन, दिनांक 06 जनवरी 2025 में सिंहस्थ मेला क्षेत्र नगर विकास योजना 09, में सम्मिलित ग्राम भेरूगढ, मोजमखेडी, भद्रेडमयचक, कोलूखेडी में से ग्राम मोजमखेडी की सूची में टंकण व प्रकाशन त्रुटि होने से ग्राम मोजमखेडी की संशोधित सूची निम्नानुसार है। योजना में सम्मिलित शेष ग्राम की सूचियाँ यथावत स्थापित रहेगी।

संशोधन

ग्राम मोजमखेडी					
सरल क्रमांक	स्वामी का नाम	तहसील	ग्राम का नाम	खसरा क्रमांक(इसके अंशों को सम्मिलित करते हुए, यदि कोइहो)	क्षेत्रफल हेक्टेयर में
1	दुर्गाबाई पति कैलाशचन्द्र माली	उज्जैन नगर	मोजमखेडी	60/1	1.693
2	कैलाश पिता झरन्णलला माली	उज्जैन नगर	मोजमखेडी	60/2	1.045
3	प्रेमबाई पति लालसिंह	उज्जैन नगर	मोजमखेडी	76/1/1	0.796
4	महेंद्र चौधरी पिता लालसिंह	उज्जैन नगर	मोजमखेडी	76/1/ 2/1	0.045
5	दुर्गाबाईगोहलोत पति कैलाशचन्द्र गोहलोत	उज्जैन नगर	मोजमखेडी	76/1/ 2/2	0.373
6	संजय सांखला पिता रमेशचन्द्र सांखला	उज्जैन नगर	मोजमखेडी	76/1/3	0.209
7	महेंद्र चौधरी पिता लालसिंह	उज्जैन नगर	मोजमखेडी	76/2/ 1/1	0.526
8	दुर्गाबाईगोहलोत पति कैलाशचन्द्र गोहलोत	उज्जैन नगर	मोजमखेडी	76/2/ 1/2	0.045
9	महेंद्र चौधरी पिता लालसिंह	उज्जैन नगर	मोजमखेडी	76/2/2	0.567
10	पवन योगेश पिता कैलाशचन्द्र, दुर्गाबाई पति कैलाश चन्द्र	उज्जैन नगर	मोजमखेडी	77/1	2.138
11	राजेश राकेशसंतोषनितीनपितागणेशीलाल ऊषादीपा एलीलालाई	उज्जैन नगर	मोजमखेडी	77/2	2.073
12	कैलाश कुसुम पिता दयाराम	उज्जैन नगर	मोजमखेडी	78/1	0.054
13	कैलाश कुसुम पिता दयाराम	उज्जैन नगर	मोजमखेडी	78/3	1.854
14	कैलाश कुसुम पिता दयाराम	उज्जैन नगर	मोजमखेडी	79/1	0.261
15	कैलाश कुसुम पिता दयाराम	उज्जैन नगर	मोजमखेडी	79/3/1	1.148
16	तेजराम पिता गोविंद	उज्जैन नगर	मोजमखेडी	84/2	0.773
17	देवेन्द्रदारासिंहज्वालासिंहपितागिरवरसिह मधु दुर्गापुत्रियागिरवरसिह सुरजबाई बेवा गिरवरसिंह	उज्जैन नगर	मोजमखेडी	85/1/2	1.934
18	गीताबाईबेवा भागीरथ अनुसूइया रिकू पिता भागीरथ सिंह	उज्जैन नगर	मोजमखेडी	85/2	2.117
19	गंगाबाईपतिगोपालसिंह करणसिंहराजकुमार वीरेंद्रआशा पिता गोपाल सिंह	उज्जैन नगर	मोजमखेडी	86/1/2	2.035
20	अभिषेक पिता ईश्वर सिंह	उज्जैन नगर	मोजमखेडी	86/2/1	1.11
21	अंकित पिता ईश्वर सिंह	उज्जैन नगर	मोजमखेडी	86/2/2	1.1

22	करणसिंह पिता गोपालसिंह	उज्जैन नगर	मोजमखेडी	87/2	1.96
23	मेहरबाननिर्भयसिंहपित्रीकिशन देवबाईरामकन्याई अयोध्याबाई	उज्जैन नगर	मोजमखेडी	88	1.599
24	उमेशशर्मापितानारायणप्रसादशर्मा राहुलशर्मा	उज्जैन नगर	मोजमखेडी	89	2.571
25	उमेशशर्मापितानारायणप्रसादशर्मा राहुलशर्मा पिता नारायणप्रसादशर्मा	उज्जैन नगर	मोजमखेडी	90/1	0.887
26	उमेशशर्मापितानारायणप्रसादशर्मा राहुलशर्मा पिता नारायणप्रसादशर्मा	उज्जैन नगर	मोजमखेडी	90/3	0.679
27	देवकरण सुभाष पिताबद्रीलालसायरबाई	उज्जैन नगर	मोजमखेडी	91/1	0.205
28	मेहरबाननिर्भयसिंह पिता श्री किशन देवबाईरामकन्याई अयोध्याबाई पिता किशनसरजूबाईविश्रीकिशन	उज्जैन नगर	मोजमखेडी	91/2	0.397
29	गीताबाई बेवा भागीरथ, अनुसूईया रिकू पिता भागीरथ	उज्जैन नगर	मोजमखेडी	92/1/1	0.746
30	भारत पिता मूलचंद माखन पिता हिरालला	उज्जैन नगर	मोजमखेडी	92/1/2	0.209
31	गीताबाई बेवा भागीरथ, अनुसूईया रिकू पिता भागीरथ	उज्जैन नगर	मोजमखेडी	92/1/3	0.033
32	उमेश शर्मा पिता नारायण प्रसाद शर्मा, राहुल शर्मा पिता नारायण शर्मा	उज्जैन नगर	मोजमखेडी	93	1.620
33	राजेश लोकेश पिता हरिशचन्द्र	उज्जैन नगर	मोजमखेडी	114/1	0.515
34	राजेश लोकेश पिता हरिशचन्द्र	उज्जैन नगर	मोजमखेडी	114/2	1.809
35	राजेश लोकेश पिता हरिशचन्द्र	उज्जैन नगर	मोजमखेडी	115	0.272
36	राजेश लोकेश पिता हरिशचन्द्र	उज्जैन नगर	मोजमखेडी	116	1.244
37	राजेश लोकेश पिता हरिशचन्द्र	उज्जैन नगर	मोजमखेडी	117/1	0.356
38	राजेश लोकेश पिता हरिशचन्द्र	उज्जैन नगर	मोजमखेडी	117/2	1.318
39	राजेश लोकेश पिता हरिशचन्द्र	उज्जैन नगर	मोजमखेडी	118/2	0.679
40	राजेश लोकेश पिता हरिशचन्द्र	उज्जैन नगर	मोजमखेडी	119/1	0.031
41	राजेश लोकेश पिता हरिशचन्द्र	उज्जैन नगर	मोजमखेडी	119/3	0.128
42	राजेश लोकेश पिता हरिशचन्द्र	उज्जैन नगर	मोजमखेडी	120/1	2.352
43	लोकेश पिता हरिशचन्द्र	उज्जैन नगर	मोजमखेडी	120/3	0.07
44	लोकेश पिता हरिशचन्द्र	उज्जैन नगर	मोजमखेडी	121/1	0.351
45	लोकेश पिता हरिशचन्द्र	उज्जैन नगर	मोजमखेडी	121/3	0.104
46	मंगल पिता रामकरण	उज्जैन नगर	मोजमखेडी	135/1	1.082
47	विष्णु पिता रामकरण	उज्जैन नगर	मोजमखेडी	135/2	1.24
48	ओमप्रकाश पिता रामकरण	उज्जैन नगर	मोजमखेडी	135/3	0.782
49	मंगल पिता रामकरण	उज्जैन नगर	मोजमखेडी	135/4	0.156
50	ओमप्रकाश पिता रामकरण	उज्जैन नगर	मोजमखेडी	135/5	0.209
51	देवेन्द्रदारासिंहज्वालासिंहपितागिरवरसिंह मधु दुर्गापुत्रियागिरवरसिंह सुरजबाई बेवा गिरवरसिंह	उज्जैन नगर	मोजमखेडी	136/1	0.06
52	ओमप्रकाश पिता रामकरण	उज्जैन नगर	मोजमखेडी	136/2	0.073
53	कृष्णबाई पतिईश्वरसिंहराधाबाईगायत्री पिता ईश्वरसिंह अभिषेकअंकित पिता ईश्वरसिंह	उज्जैन नगर	मोजमखेडी	136/3	0.127
54	कृष्णबाई पतिईश्वरसिंहराधाबाईगायत्री पिता ईश्वरसिंह अभिषेकअंकित पिता ईश्वरसिंह	उज्जैन नगर	मोजमखेडी	136/5	0.13
55	देवेन्द्रदारासिंहज्वालासिंहपितागिरवरसिंह मधु दुर्गापुत्रियागिरवरसिंह सुरजबाई बेवा गिरवरसिंह	उज्जैन नगर	मोजमखेडी	137/1	0.081
56	कृष्णबाई पतिईश्वरसिंहराधाबाईगायत्री पिता ईश्वरसिंह अभिषेकअंकित पिता ईश्वरसिंह	उज्जैन नगर	मोजमखेडी	137/2	0.122
57	कृष्णबाई पतिईश्वरसिंहराधाबाईगायत्री पिता ईश्वरसिंह अभिषेकअंकित पिता ईश्वरसिंह	उज्जैन नगर	मोजमखेडी	137/4	0.042
58	देवेन्द्रदारासिंहज्वालासिंहपितागिरवरसिंह मधु दुर्गापुत्रियागिरवरसिंह सुरजबाई बेवा गिरवरसिंह	उज्जैन नगर	मोजमखेडी	138/1	0.298

59	कृष्णाबाई पतिईश्वरसिंहराधाबाईगायत्री पिता ईश्वरसिंह अभिषेकअंकित पिता ईश्वरसिंह	उज्जैन नगर	मोजमखेडी	138/2	0.287
60	कृष्णाबाई पतिईश्वरसिंहराधाबाईगायत्री पिता ईश्वरसिंह अभिषेकअंकित पिता ईश्वरसिंह	उज्जैन नगर	मोजमखेडी	138/4	0.052
61	कृष्णाबाई पतिईश्वरसिंहराधाबाईगायत्री पिता ईश्वरसिंह अभिषेकअंकित पिता ईश्वरसिंह	उज्जैन नगर	मोजमखेडी	139/2	0.413
62	तोलाराम सत्यनारायणउर्फकालू पिता मांगीलाल	उज्जैन नगर	मोजमखेडी	140	0.972
63	गणेशीलाल पिदेवासम्पत्पिदेवाराजेशप्रेमलता पिता लक्ष्मीनारायण दोलतबाईपतिस्वलक्ष्मी नारायण राजूबाई , बेवा चुन्नीलालराजू पिता चुन्नीलाल सर माता राजूबाई	उज्जैन नगर	मोजमखेडी	141	0.136
64	विष्णुपितारामकरन द्वोपतीबाईगोमीबाईराजूबाई पिता रामकरण	उज्जैन नगर	मोजमखेडी	142	0.115
65	तोलाराम सत्यनारायणउर्फकालू पिता मांगीलाल	उज्जैन नगर	मोजमखेडी	143	0.24
66	राजेश लोकेश पिता हरिशचन्द्र	उज्जैन नगर	मोजमखेडी	144	1.672
67	संतोष भैरूलालदिलीप कृष्णाबाईविधाबाई	उज्जैन नगर	मोजमखेडी	145	0.418
68	गणेशीलाल पिदेवासम्पत्पिदेवाराजेशप्रेमलता पितालक्ष्मीनारायण दोलतबाईपतिस्वलक्ष्मीनारायण राजूबाई, बेवा चुन्नीलालराजू पिता चुन्नीलाल सर माता राजूबाई	उज्जैन नगर	मोजमखेडी	146	0.125
69	अनिल मनोजपिताकेलाशरेखासवितापिताकैलाश शांताबाई पतिस्वकैलाशबद्रीलालमोतीरामराजेन्द्रकु पिता घासीराम	उज्जैन नगर	मोजमखेडी	148/1	0.125
70	अनिल मनोजपिताकेलाशरेखासवितापिताकैलाश शांताबाई पतिस्वकैलाशबद्रीलालमोतीरामराजेन्द्रकु पिता घासीराम	उज्जैन नगर	मोजमखेडी	149	0.167
71	मोतीलाल पिता घासीराम	उज्जैन नगर	मोजमखेडी	150	1.317
72	मोतीलाल पिता घासीराम	उज्जैन नगर	मोजमखेडी	151	0.47
73	मोतीलाल पिता घासीराम	उज्जैन नगर	मोजमखेडी	152/1	0.59
74	मोतीलाल पिता घासीराम	उज्जैन नगर	मोजमखेडी	153/1/ 1/1	0.642
75	कपिलकुमार ,र्हष ,नयन पिता भूपेन्द्र कुमार गेहलोत	उज्जैन नगर	मोजमखेडी	153/1/ 2/1	0.193
76	शांताबाई भगवानसिंह	उज्जैन नगर	मोजमखेडी	153/1/ 3/2	0.331
77	लालचन्द्र पिता दिपचन्द्र	उज्जैन नगर	मोजमखेडी	153/1/ 4/1	0.286
78	ब्रजेश पिता खुमानसिंह	उज्जैन नगर	मोजमखेडी	153/2/1	1.82
79	ब्रजेश धनेश्वरीनिर्मलाजयश्रीभागेश्वरी वंदना पिता खुमानसिंह	उज्जैन नगर	मोजमखेडी	153/2/ मिन-2	0.115
80	दिलीप चौहान पुत्र स्व .रमेशचन्द्र चौहान	उज्जैन नगर	मोजमखेडी	154/1	0.05
81	तिलकावती सोगानी	उज्जैन नगर	मोजमखेडी	154/2	1.11
82	सुभाष एउमरामसिंह रामप्रसादभागवताबाई गवराबाई गीताबाईगंगाबाईधापुबाई पिता माधुजी	उज्जैन नगर	मोजमखेडी	155/1/1	0.031
83	करणसिंह पिता गोपालसिंह	उज्जैन नगर	मोजमखेडी	156	0.627
84	देवेन्द्रदारासिंहजवालासिंहपितागिरवरसिंह मधुदुर्गा पुत्रियागिरवरसिंह सुरजबाई बेवा गिरवरसिंह	उज्जैन नगर	मोजमखेडी	157/1	0.627
85	गोपालसिंहभागीरथगिरवरसिंहईश्वरसिंहपितीमसिंह अनुराधाउषा, विजयसिंह अजयसिंह पिता भगवान सिंह शांताबाई बेवा भगवानसिंह	उज्जैन नगर	मोजमखेडी	158/2	0.815
86	गोपालसिंहभागीरथगिरवरसिंहईश्वरसिंहपितीमसिंह अनुराधाउषा, विजयसिंह अजयसिंह पिता भगवान सिंह शांताबाई बेवा भगवानसिंह	उज्जैन नगर	मोजमखेडी	161	0.679
87	रेशमबाई पति सिद्धूजी	उज्जैन नगर	मोजमखेडी	162	0.491
88	अभयकुमार पिता दिपचन्द्र	उज्जैन नगर	मोजमखेडी	163/1	0.322
89	अभयकुमार पिता दिपचन्द्र	उज्जैन नगर	मोजमखेडी	163/2	0.19
90	अभयकुमार पिता दिपचन्द्र	उज्जैन नगर	मोजमखेडी	163/3	0.042
91	अभयकुमार पिता दिपचन्द्र	उज्जैन नगर	मोजमखेडी	164/1	0.053

92	अभयकुमार पिता दिपचन्द्र	उज्जैन नगर	मोजमखेडी	164/2	0.281
93	अभयकुमार पिता दिपचन्द्र	उज्जैन नगर	मोजमखेडी	164/3	0.063
94	अभयकुमार पिता दिपचन्द्र	उज्जैन नगर	मोजमखेडी	165/1	0.011
95	अभयकुमार पिता दिपचन्द्र	उज्जैन नगर	मोजमखेडी	165/2	0.052
96	अजयसिंह पिता भगवानसिंह	उज्जैन नगर	मोजमखेडी	167	0.136
97	गंगाबाईपतिगोपालसिंह करणसिंहराजकुमार वीरेंद्रआशा पिता गोपाल सिंह	उज्जैन नगर	मोजमखेडी	169/2	0.032
98	अंकित पिता ईश्वर सिंह	उज्जैन नगर	मोजमखेडी	172/1/1	0.28
99	अभिषेक पिता ईश्वर सिंह	उज्जैन नगर	मोजमखेडी	172/1/2	0.279
100	सुनीताबेवारितेश पियूष दीपिका पिता रितेश	उज्जैन नगर	मोजमखेडी	172/2	0.559
101	अजयसिंह पिता भगवानसिंह	उज्जैन नगर	मोजमखेडी	172/3/1	0.366
102	विजयसिंह पिता भगवानसिंह	उज्जैन नगर	मोजमखेडी	172/3/2	0.366
103	अजयसिंह पिता भगवानसिंह	उज्जैन नगर	मोजमखेडी	173/1	0.788
104	विजयसिंह पिता भगवानसिंह	उज्जैन नगर	मोजमखेडी	173/2	0.787
105	अजयसिंह पिता भगवानसिंह	उज्जैन नगर	मोजमखेडी	174/1	0.094
106	विजयसिंह पिता भगवानसिंह	उज्जैन नगर	मोजमखेडी	174/2	0.23
107	गंगाबाई एनागूलालकृष्णलाल पिता मुस्तालाल	उज्जैन नगर	मोजमखेडी	175/1/1	0.157
108	अभयकुमार पिता दिपचन्द्र	उज्जैन नगर	मोजमखेडी	175/2	0.209
109	मनोहरलाल पिता नाथूलाल	उज्जैन नगर	मोजमखेडी	177	0.575
110	मनोहरलाल पिता नाथूलाल	उज्जैन नगर	मोजमखेडी	178	0.324
111	मनोहरलाल पिता नाथूलाल	उज्जैन नगर	मोजमखेडी	179/1	0.198
112	सुनीतापतिमहेश महेश	उज्जैन नगर	मोजमखेडी	179/2	0.032
113	मनोहरलाल पिता नाथूलाल	उज्जैन नगर	मोजमखेडी	180/1	0.074
114	सुनीतापतिमहेश महेश पिता पूनमचन्द्र	उज्जैन नगर	मोजमखेडी	180/2	0.072
115	लालसिंह पिता नारायण सिंह	उज्जैन नगर	मोजमखेडी	181/2	0.419
116	बाबूलाल पिता नारायण	उज्जैन नगर	मोजमखेडी	183	0.627
117	बाबूलाल पिता नारायण	उज्जैन नगर	मोजमखेडी	184	0.042
118	बाबूलाल पिता नारायण सिंह	उज्जैन नगर	मोजमखेडी	185/1	1.045
119	राजेन्द्र पिता धासीराम	उज्जैन नगर	मोजमखेडी	187	0.439
120	राजेन्द्र पिता धासीराम	उज्जैन नगर	मोजमखेडी	188/1	0.93
121	मोतीलाल पिता धासीराम	उज्जैन नगर	मोजमखेडी	188/2	0.084
122	राजेन्द्रपितागणेशलाल गंगाबाई पति राजेन्द्र	उज्जैन नगर	मोजमखेडी	190/1/1	0.14
123	राजेन्द्रपितागणेशलाल गंगाबाई पति राजेन्द्र	उज्जैन नगर	मोजमखेडी	190/1/3	0.15
124	लीलाधर राजेन्द्र पिता गणेशलाल	उज्जैन नगर	मोजमखेडी	190/2/1	0.112
125	लीलाधर राजेन्द्र पिता गणेशलाल	उज्जैन नगर	मोजमखेडी	190/2/3	0.315
126	राजेन्द्र प्रजापत ब्रह्म पिता गणेशलाल	उज्जैन नगर	मोजमखेडी	190/3/1	0.112
127	राजेन्द्र प्रजापत ब्रह्म पिता गणेशलाल	उज्जैन नगर	मोजमखेडी	190/3/3/1	0.097
128	पवित्रबाईबेवाराधेश्याम अंकितराहुलं अंजू पुत्री राधेश्याम	उज्जैन नगर	मोजमखेडी	190/3/3/2	0.218
129	चिन्तामण पिता नाथूलाल	उज्जैन नगर	मोजमखेडी	190/4/1	0.125
130	चिन्तामण पिता नाथूलाल	उज्जैन नगर	मोजमखेडी	190/4/3	0.302
131	महेश पिता नाथूलाल	उज्जैन नगर	मोजमखेडी	190/5/1	0.112
132	महेश पिता नाथूलाल	उज्जैन नगर	मोजमखेडी	190/5/3	0.296
133	जया लश्करी पति नरेंद्रलश्करी	उज्जैन नगर	मोजमखेडी	190/6/1	0.112
134	जया लश्करी पति नरेंद्रलश्करी	उज्जैन नगर	मोजमखेडी	190/6/3	0.21
135	राजेशलोकेशपिताहरिशचन्द्रहिसुधीरवीरेन्द्रपिअनन्तनारायण लोकेशपिकेशरीमल सुधीरवीरेन्द्र अनन्तनारायण शादेवीपतिस्वअनन्तनारायणनानीबाई पिता पुनमचन्द्र	उज्जैन नगर	मोजमखेडी	190/7/1	1.000

136	राजेशलोंकेशपिताहरिशचन्दहिसुधीरवीरेन्द्रपिअनन्तनारायण लोकेशपिकेशरीमल सुधीरवीरेन्द्र अनन्तनारायण शादेवीपतिस्वअनन्तनारायणनानीबाई पिता पुनमचन्द्र	उज्जैन नगर	मोजमखेडी	190/7/3	1.881
13	महेश पिता नाथूलाल	उज्जैन नगर	मोजमखेडी	191/1	0.019
138	जया लशकरी पति नरेंद्रलशकरी	उज्जैन नगर	मोजमखेडी	191/2	0.105
139	राजेशलोंकेशपिताहरिशचन्दहिसुधीरवीरेन्द्रपिअनन्तनारायण लोकेशपिकेशरीमल सुधीरवीरेन्द्र अनन्तनारायण शादेवीपतिस्वअनन्तनारायणनानीबाई पिता पुनमचन्द्र	उज्जैन नगर	मोजमखेडी	191/3	0.19
140	राजेशलोंकेशपिताहरिशचन्दहिसुधीरवीरेन्द्रपिअनन्तनारायण लोकेशपिकेशरीमल सुधीरवीरेन्द्रपिअनन्तनारायण आशादेवीपतिस्वअनन्तनारायणनानीबाई पिता पुनमचन्द्र	उज्जैन नगर	मोजमखेडी	192	0.909
141	मोतीलाल पिता घासीराम	उज्जैन नगर	मोजमखेडी	193/2	0.72
142	राजेशलोंकेशपिताहरिशचन्दहिसुधीरवीरेन्द्रपिअनन्तनारायण लोकेशपिकेशरीमल सुधीरवीरेन्द्र अनन्तनारायण शादेवीपतिस्वअनन्तनारायणनानीबाई पिता पुनमचन्द्र	उज्जैन नगर	मोजमखेडी	194	0.314
143	राजेशलोंकेशपिताहरिशचन्दहिसुधीरवीरेन्द्रपिअनन्तनारायण लोकेशपिकेशरीमल सुधीरवीरेन्द्र अनन्तनारायण शादेवीपतिस्वअनन्तनारायणनानीबाई पिता पुनमचन्द्र	उज्जैन नगर	मोजमखेडी	196	0.272
144	मोतीलाल पिता घासीराम	उज्जैन नगर	मोजमखेडी	197	0.376
145	राजेशलोंकेशपिताहरिशचन्दहिसुधीरवीरेन्द्रपिअनन्तनारायण लोकेशपिकेशरीमल सुधीरवीरेन्द्र अनन्तनारायण शादेवीपतिस्वअनन्तनारायणनानीबाई पिता पुनमचन्द्र	उज्जैन नगर	मोजमखेडी	198	0.293
146	राजेशलोंकेशपिताहरिशचन्दहिसुधीरवीरेन्द्रपिअनन्तनारायण लोकेशपिकेशरीमल सुधीरवीरेन्द्र अनन्तनारायण शादेवीपतिस्वअनन्तनारायणनानीबाई पिता पुनमचन्द्र	उज्जैन नगर	मोजमखेडी	199	0.23
147	राजेशलोंकेशपिताहरिशचन्दहिसुधीरवीरेन्द्रपिअनन्तनारायण लोकेशपिकेशरीमल सुधीरवीरेन्द्र अनन्तनारायण शादेवीपतिस्वअनन्तनारायणनानीबाई पिता पुनमचन्द्र	उज्जैन नगर	मोजमखेडी	200	0.345
148	मोतीलाल पिता घासीराम	उज्जैन नगर	मोजमखेडी	201/1	0.104
149	राजेंद्र पिता घासीराम	उज्जैन नगर	मोजमखेडी	201/2	0.042
150	राजेंद्र पिता घासीराम	उज्जैन नगर	मोजमखेडी	202/1	0.826
151	मोतीलाल पिता घासीराम	उज्जैन नगर	मोजमखेडी	202/2	0.627
152	राजेन्द्र पिता घासीराम	उज्जैन नगर	मोजमखेडी	203	0.282
153	राजेन्द्र पिता घासीराम	उज्जैन नगर	मोजमखेडी	204	0.115
154	मोतीलाल पिता घासीराम	उज्जैन नगर	मोजमखेडी	205/1	1.282
155	राजेन्द्र पिता घासीराम	उज्जैन नगर	मोजमखेडी	205/2	3.401
156	राजेन्द्र पिता घासीराम	उज्जैन नगर	मोजमखेडी	206	0.031
157	राजेन्द्र पिता घासीराम	उज्जैन नगर	मोजमखेडी	207	0.01
158	राजेन्द्र पिता घासीराम	उज्जैन नगर	मोजमखेडी	208	0.167
159	राजेन्द्र पिता घासीराम	उज्जैन नगर	मोजमखेडी	209	0.178
Total					87.527

ग्राम मोजमखेडी (शासकीय भूमि)

सरल क्रमांक	स्वामी का नाम	तहसील	ग्राम का नाम	खसरा क्रमांक(इसके अंशों को समिलित करते हुए, यदि कोई हो)	क्षेत्रफल हेक्टेयर में
1	शासकीय रास्ता	उज्जैन नगर	मोजमखेडी	80	0.345
2	शासकीय कृषि रास्ता	उज्जैन नगर	मोजमखेडी	81/1	0.136

3	शासकीय कृषि नजूल	उज्जैन नगर	मोजमखेड़ी	81/2	0.24
4	शासकीय कृषि नजूल	उज्जैन नगर	मोजमखेड़ी	82	0.052
5	शासकीय कृषि नजूल	उज्जैन नगर	मोजमखेड़ी	83	0.167
6	शासकीय कृषि रास्ता म.प्र. शासन	उज्जैन नगर	मोजमखेड़ी	117/3	0.015
7	शासकीय कृषि रास्ता म.प्र. शासन	उज्जैन नगर	मोजमखेड़ी	117/4	0.025
8	शासकीय कृषि रास्ता म.प्र. शासन	उज्जैन नगर	मोजमखेड़ी	118/1	0.032
9	शासकीय नजूल	उज्जैन नगर	मोजमखेड़ी	147/1	0.371
10	शासकीय	उज्जैन नगर	मोजमखेड़ी	147/मिन-2	0.047
11	शासकीय कृषि रास्ता	उज्जैन नगर	मोजमखेड़ी	166	0.115
12	शासकीय	उज्जैन नगर	मोजमखेड़ी	171/211	0.052
13	शासकीय कर्मेश्वर /अंगारेश्वर मंदिर	उज्जैन नगर	मोजमखेड़ी	175/1/2	0.178
14	शासकीय कृषि रास्ता	उज्जैन नगर	मोजमखेड़ी	176	0.449
15	शासकीय मध्यप्रदेश शासन	उज्जैन नगर	मोजमखेड़ी	181/1	0.365
16	शासकीय कृषि मरघट, शासकीय	उज्जैन नगर	मोजमखेड़ी	182	0.784
17	शासकीय म.प्र. शासन	उज्जैन नगर	मोजमखेड़ी	185/2	0.021
18	शासकीय कृषि नाला	उज्जैन नगर	मोजमखेड़ी	186	0.836
19	शासकीय कृषि नाला	उज्जैन नगर	मोजमखेड़ी	189	0.481
20	शासकीय कृषि नाला	उज्जैन नगर	मोजमखेड़ी	195	0.261
Total					4.972

संदीप कुमार सोनी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी.

(G-247)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का नाम समस्त दस्तावेजों में ओजस्विता (Ojasvita) अंकित है, अतः भविष्य में मेरी पुत्री को ओजस्विता प्रियदर्शी (Ojasvita Priyadarshi) पिता ओम प्रकाश के नाम से जाना व पहचाना जाये।

भवदीय,
(ओम प्रकाश)

(G-248)

नाम परिवर्तन

मैं, जैन वीथिका अनिल (Jain Veethika Anil) पुत्री श्री अनिल कुमार जैन, सर्वसाधारण को सूचित करती हूँ कि मेरे शासकीय, अर्द्धशासकीय, शैक्षणिक प्रपत्र जैसे—पैनकार्ड, आधारकार्ड शैक्षणिक दस्तावेजों इत्यादि में मेरा नाम जैन वीथिका अनिल अंकित है एवं मेरे अन्य मार्कशीट में मेरा नाम वीथिका जैन (Veethika Jain) दर्ज है, ये दोनों ही नाम मेरे स्वयं के यानि एक ही व्यक्ति के नाम हैं, अतः मेरे शासकीय, अशासकीय, शैक्षणिक दस्तावेजों में मेरा नाम वीथिका जैन के स्थान पर जैन वीथिका अनिल नाम पढ़ा जाये।

पुराना नाम
(वीथिका जैन)

नया नाम
(जैन वीथिका अनिल)
निवासी—10/8, अमलतास कॉलेक्स,
मनीषा मार्केट के पास, शाहपुरा, तहसील हुजूर,
जिला भोपाल (म.प्र.).

(G-249)

नाम परिवर्तन

मैं, श्रीमती माला गौर (Smt. Mala Gaur) पत्नी श्री मिथलेश कुमार सिंह गौर सर्वसाधारण को सूचित करती हूँ कि मेरे पहचान—पत्र एवं अन्य दस्तावेजों में मेरा नाम श्रीमती माला गौर अंकित है एवं मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम श्रीमती मंजरी (Smt. Manjaree) दर्ज है, ये दोनों ही नाम मेरे स्वयं के यानि एक ही व्यक्ति के नाम हैं, अतः मेरे आधारकार्ड में मेरा नाम श्रीमती मंजरी के स्थान पर श्रीमती माला गौर नाम पढ़ा जाये। सर्वजन एवं आमजन सूचित हो।

पुराना नाम
(मंजरी)

नया नाम
(माला गौर)

निवासी—53, आवा महाराज की गली,
दाल बाजार, लश्कर, जिला ग्वालियर (म.प्र.).

(G-250)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का नाम समस्त दस्तावेजों में ओजस्विनी (Ojasvini) अंकित है, अतः भविष्य में मेरी पुत्री को ओजस्विनी प्रियदर्शी (Ojasvini Priyadarshi) पिता ओम प्रकाश के नाम से जाना व पहचाना जाये।

(G-251)

भवदीय
(ओमप्रकाश)

नाम परिवर्तन

मैं, चंद्रशेखर आजाद तिवारी पिता रामस्वरूप तिवारी, निवासी—भारत पेट्रोल पंप के पीछे, रानीपुर रोड, किंदवई वार्ड, बैतूल मध्यप्रदेश. मेरे शैक्षणिक दस्तावेज में त्रुटिवश नाम चंद्रशेखर आजाद पुत्र रामस्वरूप तिवारी (CHANDRASHEKHAR AZAD S/o RAMSWAROOP TIWARI) अंकित है. सही प्रचलित नाम मेरा चंद्रशेखर आजाद तिवारी पिता रामस्वरूप तिवारी (CHANDRASHEKHAR AZAD TIWARI S/o RAMSWAROOP TIWARI) सभी अन्य दस्तावेजों में दर्ज है. जो कि सही है. प्रकाशन उपरांत मेरा नाम सभी शासकीय/अद्वृशासकीय/व्यक्तिगत कार्यवाही तथा समस्त दस्तावेजों में नाम चंद्रशेखर आजाद तिवारी पिता रामस्वरूप तिवारी (CHANDRASHEKHAR AZAD TIWARI S/o RAMSWAROOP TIWARI) के नाम से पढ़ा—लिखा जावे।

प्रार्थी
(चंद्रशेखर आजाद तिवारी)
पिता—रामस्वरूप तिवारी,
(CHANDRASHEKHAR AZAD TIWARI)
S/o RAMSWAROOP TIWARI

(G-252)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, निशा शर्मा पति नीरज शर्मा, निवासी—न्यू कॉलोनी नं. 1/149, बिरला नगर, ग्वालियर (म.प्र.). मेरा विवाह पूर्व नाम पूनम शर्मा पुत्री प्रदीप शर्मा था. मेरा विवाह श्री नीरज शर्मा पिता चिंता मनी शर्मा के साथ होने से मेरा वर्तमान नाम निशा शर्मा पति नीरज शर्मा हो गया है. पूनम शर्मा एवं निशा शर्मा दोनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं. अतः प्रकाशन उपरांत मुझे निशा शर्मा पति नीरज शर्मा के नाम से जाना—पहचाना एवं दर्ज किया जावे।

पुराना नाम
(पूनम शर्मा)

नया नाम
(निशा शर्मा)
पति—नीरज शर्मा.

(G-253)

नाम परिवर्तन

मैं, फुन्दली डावर पत्नी श्री सुरेश डावर, निवासी—पटेल फलिया, ग्राम छोटागुडा, तहसील—जोबट, जिला—अलीराजपुर मध्यप्रदेश. मेरे आधार कार्ड पर त्रुटिवश सुनीता नाम अंकित हो गया है. जो कि गलत है, जबकि मेरे शैक्षणिक दस्तावेजों और निवास एवं जाति प्रमाण—पत्र में फुन्दली डावर (FUNDALI DAWAR) नाम दर्ज है. जो कि सही है. अतः प्रकाशन उपरांत भविष्य में मेरे सभी शासकीय/अद्वशासकीय/व्यक्तिगत कार्यवाही एवं समस्त दस्तावेजों में सही नाम फुन्दली डावर (FUNDALI DAWAR) पत्नी श्री सुरेश डावर से जाना—पहचाना व लिखा—पढ़ा एवं दर्ज किया जावे.

पुराना नाम
(सुनीता)

(G-254)

नया नाम
(फुन्दली डावर)
(FUNDALI DAWAR)

पत्नी—श्री सुरेश डावर.

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का नाम पवन दाँगी (PAWAN DANGI) जो कि उसके आधार कार्ड में त्रुटिवश अंकित हो गया है. अतः उसके सभी दस्तावेजों में उसका नाम दिव्यांश दाँगी (DIVYANSH DANGI) दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरांत मेरे पुत्र के सही नाम दिव्यांश दाँगी (DIVYANSH DANGI) के नाम से सभी शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में लिखा—पढ़ा एवं दर्ज किया जाये.

आवेदिका
(शकुन दाँगी)
पति—स्व. श्री राजकुमार दाँगी,
निवासी—ग्राम धारुखेड़ी, चिरोडिया,
जिला विदिशा (म.प्र.).

(G-255)

CHANGE OF NAME

I, hereby declare that, my correct name is Sumitra Shah but in some of my documents share certificate my Name was written as Sumitra Devi Shah . In which my middle name is written, So I want to remove it from Sumitra Devi Shah To Sumitra Shah. Henceforth my name shall be written and read as Sumitra Shah for all purposes.

Old Name (SUMITRA DEVI SHAH)	New Name (SUMITRA SHAH)
--	-----------------------------------

Add :-42, Sampat Frams 5th Cross Road,
Near Swati Jain College, Bicholi,
Bicholi Mardana, Indore (M.P.).

(G-256)

PUBLIC NOTICE

(NOTICE U/s.72 OF THE PARTNERSHIP ACT, 1932)

Notice is hereby given that in the firm M/s. ASHISH JAISWAL, Registered Office at "Old Shyam Talkies" 141, Itwara Bazar Pipariya, Opp. Hotel Lucky Palace, Tehsil Pipariya, District Narmadapuram (M.P.) 461775, and Registration No is 01-07-06-0330-22, dated 23-11-2022 which was constituted vide partnership deed executed on 11th Febrary, 2017.

In this partnership firm subsequently, following changes have occurred on 31st March 2024 Shri Omprakash Rai, S/o Shri Asharam Rai and Shri Amarpal Yadav, S/o Shri Hariram Yadav has desirous to voluntarily retire as partners.

Now, (1) Shri Ashish Jaiswal S/o Shri Sohanlal Jaiswal, (2) Shri Rahul Jaiswal S/o Late Shri Kamal Kumar Jaiswal, (3) Shri. Jitendra Jaiswal, S/o Shri Vishwanath Prasad and (4) Shri Rajkumar Jaiswal S/o Vishv Nath Jaiswal are the running partners of the firm.

For-M/s. ASHISH JAISWAL

~ (RAHUL JAISWAL)

(Partner).

(G-257)

CHANGE OF NAME

I, hereby declare that, my correct name is Goutam Kanungo but in some of my documents my Name was written as Goutam and some where Gautam Kanungo. In which my surname is missing and some where my Name's spelling is written wrong, So I want to correct it as a single name with surname and correct spelling. Henceforth my name shall be written and read as Goutam Kanungo for all purposes.

Old Name :

(GOUTAM/GAUTAM KANUNGO)

New Name :

(GOUTAM KANUNGO)

S/o Naresh Chandra Kanungo,

M.Q. No. 1020, Near H. No. 247,

Rani Durgawati Ward 34, Shobhapur Colony

Shobhapur, Disst.-Betul (M.P.).

(G-258)

नाम परिवर्तन

मैं, रामकिशोर पटेल (**RAMKISHOR PATEL**) आत्मज श्री मानसिंह पटेल, आयु—व्यस्क, निवासी—टेकापार, कचार्कोना, जिला नरसिंहपुर (म.प्र.). सर्वसाधारण को सूचित करता हूँ कि मेरे आधारकार्ड में मेरा नाम किशोर कुमार (**KISHOR KUMAR**) अंकित है. जो कि गलत है. जबकि मेरा सही नाम रामकिशोर पटेल (**RAMKISHOR PATEL**) दर्ज है. जो कि सही है. दोनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं. अतः भविष्य में मेरा नाम रामकिशोर पटेल (**RAMKISHOR PATEL**) सभी सरकारी एवं गैर सरकारी दस्तावेजों में इन्हीं नामों से जाना एवं पहचाना जावे.

पुराना नाम

(किशोर कुमार)

नया नाम

(रामकिशोर पटेल)

(G-259)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित करती हूँ कि मैं, श्रीमती नीलिमा आठवले पत्नी श्री दिलीप कुमार आठवले, निवासी—जी—5, सुन्हेरी बाग, ई.डब्ल्यू.एस क्वार्टर्स के पास, जवाहर चौक, सी.टी.टी. नगर, भोपाल (म.प्र.). मेरा पूर्व नाम श्रीमती नीलिमा आठवले नाम से जानते—पुकारते हैं. जबकि दस्तावेजों में नाम श्रीमती निलवंति आठवले दर्ज है. इस प्रकार श्रीमती नीलिमा आठवले और श्रीमती निलवंति आठवले एक ही होकर मेरा ही नाम है. जो कि मैं स्वयं हूँ प्रकाशन उपरांत मुझे श्रीमती नीलिमा आठवले के नाम से पढ़ा—लिखा एवं अभिलेखों में दर्ज किया जावें.

पुराना नाम

(निलवंति अठावले)

नया नाम

(नीलिमा आठवले)

(G-260)

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मे. Sukheja Brothers पंजीयन क्रमांक 05-25-01-0183-15, पंजीयन दिनांक 12-02-2015, पता-23, Hospital Chouk, गोपदबनास, सीधी (म.प्र.) 486661 कार्यालय फर्म एवं संस्थाएं, रीवा शहडोल संभाग रीवा से पंजीकृत फर्म हैं। यह कि फर्म का वर्तमान कार्यालय पता-23, Hospital Chouk, गोपदबनास, सीधी (म.प्र.) 486661 का परिवर्तन करके फर्म का नवीन कार्यालय का पता khasra No. 345/1, Ward No. 06, 23, Hospital Chouk, Sidhi गोपदबनास, सीधी (म.प्र.) 486661 किया गया है। यह कि वर्तमान में इस भागीदारी फर्म में पूर्व में (1) Shri Vijay Sukheja (2) Shri Prakash Sukheja पार्टनर थे जिसमें दिनांक 4-4-2023 को (1) Shri Vijay Sukheja S/o Shri Shavat Rai Sukheja मृत्यु होने के कारण फर्म से पृथक हो गये। उक्त निकलने (मृतक) वाले साझेदार की किसी भी प्रकार की लेनदारी व देनदारी शेष नहीं हैं। जिन्होंने आपसी सहमति से दिनांक 4-4-2023 को फर्म में दो नवीन पार्टनर (1.) Shri Hitesh Sukheja S/o Shri Prakash Sukheja, Aged 36 Years R/o. House No. 291, Sindhi Colony, Satna (M.P.) Pin code 485001 (2) Shri Gaurav Sukheja S/o Shri Girish Sukheja Aged 33 Years, R/o H.No. 340, Sindhi Colony, Satna (M.P.) Pin Code 485001 को समिलित किया गया हैं। इसके पश्चात् जिसमें दिनांक 1-4-2024 को (1) Shri Prakash Sukheja S/o Shri Gopi Chand Sukheja अपनी स्वेच्छा से फर्म से पृथक हो गये। निकलने वाले साझेदार की किसी भी प्रकार की लेनदारी व देनदारी शेष नहीं हैं। संशोधन के पश्चात् वर्तमान फर्म में दिनांक 1-4-2024 से भागीदार 1. Shri Hitesh Sukheja 2. Shri Gaurav Sukheja की भागीदारी रहेगी।

For-Sukheja Brothers,
(HITESH SUKHEJA)

Partner.

(G-261)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित हो कि मेरा नाम सुनील जाटव (SUNIL JATAV) पुत्र छत्रपाल सिंह जाटव है, निवासी ग्राम पिपरौआ, तह. भितरवार, जिला ग्वालियर (म.प्र.). मेरे उपनाम में कुछ स्थान पर जाटव व कुछ स्थान पर बंसल दर्ज है। जबकि मेरा उपनाम जाटव है। मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम सुनील बंसल त्रिटिवश दर्ज हो गया है। मेरा सही नाम सुनील जाटव है। भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना-पहचाना जावे।

पुराना नाम
(सुनील बंसल)

नया नाम
(सुनील जाटव)

(G-262)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि, मेरे पुत्र के विद्यालय के दस्तावेजों में अशर मोहम्मद खान (ASHAR MOHAMMAD KHAN) अंकित है, अब मैं अपने पुत्र का नाम उमर मोहम्मद खान (UMAR MOHAMMAD KHAN) करना चाहता हूँ। भविष्य में मेरे पुत्र को नये नाम उमर मोहम्मद खान (UMAR MOHAMMAD KHAN) से जाना-पहचाना जाये एवं शासकीय/अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में भी उमर मोहम्मद खान (UMAR MOHAMMAD KHAN) दर्ज किया जावे।

प्रार्थी
(शाफीक मोहम्मद खाँन)
पता-म. नं. डी-11-ए, बी. डी. ए. कॉलोनी,
कोहेफिजा, भोपाल (म.प्र.).

(G-263)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, मेरा नाम जितेन्द्र कुमार मिश्रा (JITENDRA KUMAR MISHRA) पिता श्री देशराज मिश्रा (DESHRAJ MISHRA), पता—गाहोड़ कॉलोनी, कोटेश्वर रोड, बावडी माता मंदिर के सामने, ग्वालियर (म.प्र.). मेरा नाम मेरे आधार कार्ड एवं पेन कार्ड में जितेन्द्र कुमार मिश्रा (JITENDRA KUMAR MISHRA) पिता श्री देशराज मिश्रा (DESHRAJ MISHRA) दर्ज है एवं मेरे शैक्षणिक दस्तावेज में जितेन्द्र मिश्रा (JITENDER/JITTENDRA/JITENDRA/JETENDRA MISHRA) पिता डी आर मिश्रा, देश राज मिश्रा (D R MISHRA/DESH RAJ MISHRA) दर्ज है. प्रकाशन पश्चात् मुझे जितेन्द्र कुमार मिश्रा (JITENDRA KUMAR MISHRA) पिता श्री देशराज मिश्रा (DESHRAJ MISHRA) के नाम से ही जाना—पहचाना, पढ़ा—लिखा एवं दर्ज किया जावे.

पुराना नाम
(जितेन्द्र मिश्रा)
(JITENDER/JITTENDRA/JITENDRA/
JETENDRA MISHRA
(G-264)

नया नाम
(जितेन्द्र कुमार मिश्रा)
(JITENDRA KUMAR MISHRA)
पिता—श्री देशराज मिश्रा
(DESHRAJ MISHRA).

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, सचिन रायकवार पिता प्रदीप, निवासी—वार्ड नं. 9, आलमपुर, भिण्ड (म.प्र.). मेरे शासकीय/अशासकीय/शैक्षणिक समस्त दस्तावेजों में मेरा नाम सचिन रायकवार पिता प्रदीप अंकित है. जो कि सही है. जबकि मेरे अन्य शासकीय दस्तावेजों में सचिन कुमार मांझी दर्ज है. सचिन रायकवार एवं सचिन कुमार मांझी दोनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं. प्रकाशन उपरांत मुझे मेरे शासकीय/अशासकीय/शैक्षणिक समस्त दस्तावेजों में सही नाम सचिन कुमार मांझी पिता प्रदीप कुमार मांझी के नाम से ही जाना—पहचाना, लिखा—पढ़ा एवं पुकारा जाए.

पुराना नाम
(सचिन रायकवार)
(SACHIN RAYAKWAR)
(G-265)

नया नाम
(सचिन कुमार मांझी)
(SACHIN KUMAR MANJHI)
पिता—प्रदीप कुमार मांझी.

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा पूर्व नाम TANAY ROMAN था. यही नाम मेरी पॉलिसी में दर्ज है. मैंने अपना नाम TANAY ROMAN से बदलकर VARDHMAN SANJAY ROMAN रख लिया है, जो मेरे आधार कार्ड, पेन कार्ड, शैक्षणिक दस्तावेजों में दर्ज हैं. TANAY ROMAN एवं VARDHMAN SANJAY ROMAN मुझ एक ही व्यक्ति के नाम हैं. भविष्य में मुझे VARDHMAN SANJAY ROMAN के नाम से जाना—पहचाना जावे व मेरे शासकीय व अशासकीय दस्तावेजों एवं मेरी पॉलिसी में दर्ज किया जावे.

पुराना नाम
(TANAY ROMAN)
(G-266)

नया नाम
(VARDHMAN SANJAY ROMAN)
S/o Sanjay Chimanrao Roman,
C/o Shri C. R. Roman (Advocate), Roman Ka
Bada, Kudalkar Shinde Ki Goth, Kampoo,
Lashkar, Gwalior (M.P.).

जाहिर सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है की मेसर्स टिरुपति इंटरप्राइजेस, रोड नंबर 2, इंदौर नमकीन के पास, काला खेत, मंदसौर मध्यप्रदेश, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर 07-38-01-00105-11, दिनांक 29-3-2011 है. दिनांक 27-02-2024 को एक भागीदार विनोद गर्ग पिता श्री बापूलाल गर्ग का निधन होने से उनके स्थान पर उनके पुत्र नवनीत गर्ग पिता श्री विनोद गर्ग को भागीदार बनाया गया है. दिनांक 21-3-2024 से फर्म में निम्न भागीदार फर्म का संचालन करेंगे.

1. राजेश कुमार सोनी पिता श्री कार्ललाल सोनी,
2. अंकित गर्ग पिता श्री कमल गर्ग,
3. मोहन मेघनानी पिता श्री झमटमल मेघनानी,
4. नवनीत गर्ग पिता श्री विनोद गर्ग

For-TIRUPATI ENTERPRISES,
(ANKIT GARG)

Partner.

(G-267)

जाहिर सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स नवीनचंद्र एंड कंपनी 1, टंकी चौराहा, A.B. रोड, शाजापुर (म.प्र.). जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर 07-36-01-0167-21, दिनांक 1 मार्च 2021 है. जिसमें निम्न भागीदार थे.

1. रोहन पटेल पिता श्री कौशिक पटेल,
2. जेमिन पटेल पिता श्री राजू कुमार पटेल

दिनांक 22-12-2024 को दोनों भागीदारों ने आपस में तय किया कि श्री प्रवीण सिंह गोयल पिता श्री वीरेन्द्र सिंह गोयल को फर्म में जोड़ा जाए श्री रोहन पटेल पिता श्री कौशिक पटेल अपनी स्वेच्छा से भागीदारी फर्म से पृथक हो गए. दिनांक 22-12-2024 से फर्म में निम्न भागीदार हैं :—

1. जेमिन पटेल पिता श्री राजू कुमार पटेल,
2. प्रवीण सिंह गोयल पिता श्री वीरेन्द्र सिंह गोयल.

For-M/s. Navinchandra & Co.,

(JAIMIN PATEL)

Partner.

(G-268)

नाम परिवर्तन

मैं, गोविन्द पुत्र श्री साहब सिंह, निवासी कन्हैयापार, अकोला, जिला—रायसेन, (म.प्र.). मेरी पुत्री के आधार कार्ड पर त्रुटिवश सुरुचि नाम अंकित हो गया है. जोकि गलत है, जबकि मेरी पुत्री के शैक्षणिक दस्तावेजों में राधिका ठाकुर (RADHIKA THAKUR) नाम दर्ज है. जोकि सही है. प्रकाशन उपरांत भविष्य में मेरी पुत्री के सभी शासकीय/अर्धशासकीय/व्यक्तिगत कार्यवाही एवं समस्त दस्तावेजों में सही नाम राधिका ठाकुर (RADHIKA THAKUR) पुत्री गोविन्द से जाना—पहचाना व लिखा—पढ़ा एवं दर्ज किया जावे.

पुराना नाम
(सुरुचि)

नया नाम
(राधिका ठाकुर)
(RADHIKA THAKUR)
पुत्री—गोविन्द.

(G-269)

नाम परिवर्तन

मैं, रविशंकर मीना पुत्र श्री अर्जुन सिंह मीना, निवासी—वार्ड—06, तहसील—सुहागपुर, पोस्ट—सेमरी हरचन, होशंगाबाद, (म.प्र.). मेरी पुत्री के आधार कार्ड पर त्रुटिवश सुहानी मीना नाम अंकित हो गया है. जो कि गलत है, जबकि उसके शैक्षणिक दस्तावेज में सोनम मीना (SONAM MEENA) नाम दर्ज है. जो कि सही है. प्रकाशन उपरांत भविष्य में मेरी पुत्री के सभी शासकीय/अर्धशासकीय/व्यक्तिगत कार्यवाही एवं समस्त दस्तावेजों में सही नाम सोनम मीना (SONAM MEENA) पुत्री श्री रविशंकर मीना से जाना—पहचाना व लिखा—पढ़ा एवं दर्ज किया जावे.

पुराना नाम
(सुहानी मीना)

नया नाम
(सोनम मीना)
(SONAM MEENA)
पुत्री—श्री रविशंकर मीना.

(G-270)

नाम परिवर्तन

मैं, सदाशिव पाटिल पुत्र श्री गौरीशंकर पाटिल, निवासी—ग्राम—अहलवाडा, पोस्ट—गाँदागाव, तहसील टिमरनी, जिला—हरदा, (म.प्र.). मेरी पुत्री के आधार कार्ड पर त्रुटिवश रश्मि पाटिल नाम अंकित हो गया है. जो कि गलत है, जबकि मेरी पुत्री के शैक्षणिक दस्तावेजों में रिद्धी पाटिल (RIDDHI PATIL) नाम दर्ज है जो कि सही है. प्रकाशन उपरांत भविष्य में मेरी पुत्री के सभी शासकीय/अर्धशासकीय/व्यक्तिगत कार्यवाही एवं समस्त दस्तावेजों में सही नाम रिद्धी पाटिल (RIDDHI PATIL) पुत्री सदाशिव पाटिल से जाना—पहचाना व लिखा—पढ़ा एवं दर्ज किया जावे.

पुराना नाम
(रश्मि पाटिल)

नया नाम
(रिद्धी पाटिल)
(RIDDHI PATIL)
पुत्री—सदाशिव पाटिल.

(G-271)

नाम परिवर्तन

मैं, गोविन्द पुत्र श्री साहब सिंह, निवासी—कन्हैयापार, अकोला, जिला—रायसेन, (म.प्र.). मेरे पुत्र के आधार पर त्रुटिवश भाय्यू नाम अंकित हो गया है. जो कि गलत है, जबकि मेरे पुत्र के शैक्षणिक दस्तावेजों में रुद्र ठाकुर (RUDRA THAKUR) नाम दर्ज है जो कि सही है. प्रकाशन उपरांत भविष्य में मेरे पुत्र के सभी शासकीय/अर्धशासकीय/व्यक्तिगत कार्यवाही एवं समस्त दस्तावेजों में सही नाम रुद्र ठाकुर (RUDRA THAKUR) पुत्र गोविन्द से जाना—पहचाना व लिखा—पढ़ा एवं दर्ज किया जावे.

(G-272)

प्रार्थी
(गोविन्द).

नाम परिवर्तन

मैं, सुजाता कुलकर्णी पुत्री स्व. श्री एम. जी. कुलकर्णी, निवासी—डी—604, हिमालय रेसीडेंसी, मिसरोद, भोपाल (म.प्र.). यह कि मेरी सेवा—पुस्तिका में मेरा नाम सुजाता रायजादा दर्ज हो गया है. जो कि गलत है, जबकि मेरे आधार कार्ड में सही नाम सुजाता कुलकर्णी (SUJATA KULKARNI) दर्ज है, जो कि सही है. प्रकाशन उपरांत भविष्य में मेरे सभी शासकीय/अर्धशासकीय/व्यक्तिगत कार्यवाही एवं समस्त दस्तावेजों में सही नाम सुजाता कुलकर्णी पुत्री स्व. श्री एम. जी. कुलकर्णी के नाम से जाना—पहचाना व लिखा—पढ़ा जावे.

(G-273)

पुराना नाम
(सुजाता रायजादा)

नया नाम
(सुजाता कुलकर्णी)
(SUJATA KULKARNI)
पुत्री—स्व. श्री एम. जी. कुलकर्णी.

जाहिर सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 के अधीन रजिस्टर्ड फर्म M/s GREENWOODS AGRO AND PLANTATIONS, पता—Basement 'RAJESHWAR', MIG-15, Shivnagar, Damoh Road, Jabalpur-482001, Reg. No. ज.सं. 26/1999-2000, Date 15-9-1999 द्वारा दिनांक 1-4-2002 को Shri Mukesh Pratapcharan Sinha S/o Shri Pratapcharan Sinha, R/o 504, Jamuna Mahel, 73, Prabhat Colony, Santacruz (East) Mumbai-400055 भागीदारी फर्म में समिलित किया गया एवं दिनांक 1-4-2002 को Smt. Sarla Argal, W/o Late Shri Rajeshwar Prasad Argal, R/o C-3, Smilee Greens, Huskur Road, Estate Club, Huskur Anekal, Bengaluru (Karnataka) भागीदारी फर्म से पृथक् हुई। दिनांक 1-4-2002 को भागीदारी फर्म का पता परिवर्तन कर 790/3J, Shubhpurna Homes, Napier Town, Jabalpur (M.P.) 462039 किया गया। दिनांक 29-10-2020 को Late Smt. Saraswati Devi Varma, W/o Shri Prasad Mata Khare, R/o 5/35, Anand Nagar, Santacruz (East) Mumbai की मृत्यु हो जाने के कारण दिनांक 20-11-2020 को भागीदारी फर्म से पृथक् किया गया। दिनांक 20-11-2020 को भागीदारी फर्म का पता परिवर्तन कर Basement 'RAJESHWAR' MIG-45, Shivnagar, Damoh Road, Jabalpur-482001 किया गया।

M/s GREENWOODS AGRO AND PLANTATIONS JABALPUR,
(RENU SINHA)

(G-274)

Partner.

नाम परिवर्तन

मैं, श्रीमती अनीता पत्नी श्री रामबरन (Anita W/o Shree Rambaran) सर्वसाधारण को सूचित करती हूँ कि मेरे पुत्र मोहन शर्मा (MOHAN SHARMA) के शैक्षणिक एवं अन्य दस्तावेजों में मेरा नाम त्रुटि से सरोज (Saroj) अंकित हो गया है। जो कि मेरे पूर्व का नाम था। जबकि मेरे सभी शासकीय-अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में मेरा नाम अनीता (Aneeta) अंकित है जो कि सही है। प्रकाशन के उपरांत मुझे मेरे पुत्र के सभी दस्तावेजों में अनीता (Aneeta) के नाम से ही पढ़ा-लिखा एवं पुकारा जाए।

पुराना नाम
(सरोज)
(Saroj)

नया नाम
(अनीता)
(Aneeta)
W/o रामबरन,
पता—ग्राम बिलाव, पोस्ट—बिलाव,
भिण्ड, (म.प्र.).

(G-275)

नाम परिवर्तन

मैं, अक्षत गोयल (AKSHAT GOYAL) पुत्र राम कृष्णा गोयल सर्वसाधारण को सूचित करता हूँ कि मेरा पूर्व का नाम करन गोयल था। जो मेरे पॉलिसी, जन्म प्रमाण-पत्र एवं अन्य प्रपत्रों में लिखा गया है। जबकि वर्तमान में मैं, अक्षत गोयल पुत्र राम कृष्णा गोयल के नाम से जाना-पहचाना एवं पुकारा जाता हूँ, जो मेरे आधार कार्ड, पेन कार्ड एवं अन्य प्रपत्रों में लिखा गया है। अक्षत गोयल एवं करन गोयल दोनों मेरे ही नाम हैं। अतः पॉलिसी, जन्म प्रमाण-पत्र एवं अन्य प्रपत्रों में मेरा नाम करन गोयल के स्थान पर अक्षत गोयल लिखा एवं पढ़ा जावे।

पुराना नाम
(करन गोयल)

नया नाम
(अक्षत गोयल)
पुत्र-राम कृष्णा गोयल,
पता—मुनरी बाबू का खरंजा
गोपीनाथ की पुलिया, दत्तपुरा
मुरैना (म.प्र.).

(G-276)

नाम परिवर्तन

मैं, रामचरन सिंह (RAMCHARAN SINGH) पुत्र खूनी सिंह सर्वसाधारण को सूचित करता हूँ कि मेरा पूर्व का नाम पंचम सिंह (PANCHAM SINGH) था। जो मेरे आधार कार्ड एवं अन्य प्रपत्रों में लिखा गया है। जबकि वर्तमान में मैं, रामचरन सिंह पुत्र खूनी सिंह के नाम से जाना –पहचाना एवं पुकारा जाता हूँ, जो मेरे राशन कार्ड एवं अन्य प्रपत्रों में लिखा गया है। रामचरन सिंह एवं पंचम सिंह दोनों मेरे ही नाम हैं। अतः मेरे आधार कार्ड एवं अन्य प्रपत्रों में मेरा नाम पंचम सिंह के स्थान पर रामचरन सिंह लिखा एवं पढ़ा जावे।

पुराना नाम
(पंचम सिंह)

नया नाम
(रामचरन सिंह)
पुत्र—खूनी सिंह,
पता—67, ग्राम पुरासानी, गिर्द,
ग्वालियर (म.प्र.).

(G-277)

नाम परिवर्तन

हम मोहन घोषी एवं प्रीति घोषी सर्वसाधारण को सूचित करते हैं कि हमारी पुत्री लक्ष्मी घोषी है। जो उसके जन्म प्रमाण—पत्र और शैक्षणिक पत्रों में अंकित हैं और उसका पूर्व का बोलता नाम तमन्ना चंदेल है। जो उसके आधार कार्ड में लिखा गया है। जबकि वर्तमान में लक्ष्मी घोषी के नाम से जानी—पहचानी, पुकारी जाती है। प्रकाशन के उपरांत उसे लक्ष्मी घोषी के नाम से ही पुकारा लिखा—पढ़ा जाए।

पुराना नाम
(तमन्ना चंदेल)
(Tamanna Chandel)

नया नाम
(लक्ष्मी घोषी)
(Laxmi Ghoshi)
पता—4, वार्ड नं. 1, ग्राम सेम्प्रा,
कुसली देवरी, सागर (म.प्र.).

(G-278)

नाम परिवर्तन

मैं, प्रेमबाई पटेल पत्नी श्री फूलसिंह, जाति—पुर्विया, निवासी—ग्राम—गुरारी, तहसील सोहगपुर, जिला नर्मदापुरम्, (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड पर त्रुटिवश नन्हीबाई पटेल नाम अंकित हो गया है। जो कि गलत है, जबकि मेरे पेन कार्ड और अन्य दस्तावेजों में प्रेमबाई पटेल (PREMBAI PATEL) नाम दर्ज है। जो कि सही है। प्रकाशन उपरांत भविष्य में मेरे सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय/व्यक्तिगत कार्यवाही एवं समस्त दस्तावेजों में सही नाम प्रेमबाई पटेल (PREMBAI PATEL) पत्नी श्री फूलसिंह से जाना—पहचाना व लिखा—पढ़ा एवं दर्ज किया जावे।

पुराना नाम
(नन्हीबाई पटेल)

नया नाम
(प्रेमबाई पटेल)
(PREMBAI PATEL)
पत्नी—श्री फूलसिंह।

(G-279)

उपनाम परिवर्तन

मैं, दीपक प्रजापत (DEEPAK PRAJAPAT) पुत्र श्री बालकिशन सर्वसाधारण को सूचित करता हूँ कि मेरा पूर्व का नाम दीपक उत्त्वाल (DEEPAK UTTWAL) था। जो मेरे पेन कार्ड एवं अन्य प्रपत्रों में लिखा गया है। जबकि वर्तमान में मैं, दीपक प्रजापत पुत्र श्री बालकिशन के नाम से जाना—पहचाना एवं पुकारा जाता हूँ, जो मेरे वोटर कार्ड, आधार कार्ड एवं अन्य प्रपत्रों में लिखा गया है। दीपक उत्त्वाल एवं दीपक प्रजापत दोनों मेरे ही नाम हैं। अतः मेरे पेन कार्ड एवं अन्य प्रपत्रों में मेरा नाम दीपक उत्त्वाल के स्थान पर दीपक प्रजापत लिखा एवं पढ़ा जावे।

पुराना नाम
(दीपक उत्त्वाल)

नया नाम
(दीपक प्रजापत)
पुत्र—श्री बालकिशन,
पता—2/1, माली मोहल्ला,
एम. ओ. जी. लाईन, इन्दौर (म.प्र.).

(G-280)

नाम परिवर्तन

मैं, हिम्मत सिंह (Himmat Singh) पुत्र बद्रीलाल यादव सर्वसाधारण को सूचित करता हूँ कि मेरे सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय/अन्य दस्तावेजों में मेरा नाम हिम्मत सिंह पुत्र बद्रीलाल यादव है। जो कि सही है। परंतु त्रुटि से आधार कार्ड में मेरा नाम हेमंत कुमार (Hemant Kumar) अंकित हो गया है। जो कि गलत है। प्रकाशन के बाद मुझे सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय/अन्य दस्तावेजों में हिम्मतसिंह पुत्र बद्रीलाल यादव के नाम से ही जाना—पहचाना, लिखा—पढ़ा एवं पुकारा जाए।

पुराना नाम
(हेमंत कुमार)
(Hemant Kumar)

नया नाम
(हिम्मत सिंह)
(Himmat Singh)
पुत्र—बद्रीलाल यादव
पता—53, ग्राम—सीलखेड़ा, ग्राम—सीलखेड़ा,
लखनवास, सुठालिया, राजगढ़ (म.प्र.).

(G-281)

नाम परिवर्तन

मैं, दशरथ (DASHRATH) पुत्र नेमीचंद सर्वसाधारण को सूचित करता हूँ कि मेरा पूर्व का नाम अरुण सिंह (ARUN SINGH) था। जो मेरे आधार कार्ड एवं अन्य प्रपत्रों में लिखा गया है। जबकि वर्तमान एवं भविष्य में मैं, दशरथ पुत्र नेमीचंद के नाम से जाना—पहचाना एवं पुकारा जाता हूँ, जो मेरे शैक्षणिक प्रमाण—पत्र एवं अन्य प्रपत्रों में लिखा गया है। दशरथ एवं अरुण सिंह दोनों मेरे ही नाम हैं। अतः मेरे आधार कार्ड एवं अन्य प्रपत्रों में मेरा नाम अरुण सिंह के स्थान पर दशरथ लिखा एवं पढ़ा जावे।

पुराना नाम
(अरुण सिंह)

नया नाम
(दशरथ)
पुत्र—नेमीचंद,
पता—बजरंगगढ़, गुना (म.प्र.).

(G-282)

नाम परिवर्तन

मैं, इन्दुबाला पति स्वर्गीय मदनलाल, निवासी—नया बाजार, ग्राम बिरमावल, तह. व जिला रतलाम मध्यप्रदेश एवं मेरा नाम कुछ शासकीय, अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में हिन्दूडी बाई पति स्व. मदनलाल तथा आधार कार्ड में इन्दुबाला पति मदनलाल अंकित है. मुझे उक्त दोनों नामों से जाना—पहचाना जाता है एवं दोनों नाम एक ही महिला के हैं. भविष्य में मुझे इन्दुबाला पति स्वर्गीय मदनलाल के नाम से जाना—पहचाना जावे.

पुराना नाम
(हिन्दूडी बाई)

नया नाम
(इन्दुबाला)
पति—स्व. श्री मदनलाल.

(G-283)

नाम परिवर्तन

मैं, दुलीचन्द दास बैरागी पिता राधेश्याम दास बैरागी एवं माता भागवंतीबाई, निवासी—वार्ड नं. 19, मकान नं. 93, ग्राम जलोदिया पोस्ट सुंठोद, तहसील मल्हागढ़, जिला मंदसौर. वर्तमान में मुझे दुलीचन्द दास बैरागी के नाम से जाना—पहचाना जाता है, प्रकाशन उपरांत मुझे प्रवीण बैरागी पिता राधेश्याम दास बैरागी एवं माता भागवंतीबाई बैरागी के नाम से जाना—पहचाना जावे.

पुराना नाम
(दुलीचन्द दास बैरागी)

नया नाम
(प्रवीण बैरागी)
पिता—राधेश्याम दास बैरागी.

(G-284)

नाम परिवर्तन

मैं, गोविन्द गुर्जर पिता कन्हैयालाल गुर्जर, ग्राम बिबड़ौद, तह. व जिला रतलाम मध्यप्रदेश मेरा नाम कुछ शासकीय, अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में बलराम पिता कन्हैयालाल है. मुझे उक्त दोनों नामों से जाना—पहचाना जाता है एवं दोनों नाम एक ही व्यक्ति के होकर मेरे ही नाम हैं. भविष्य में प्रार्थी को गोविन्द गुर्जर पिता कन्हैयालाल गुर्जर के नाम से जाना—पहचाना जावे.

पुराना नाम
(बलराम)

नया नाम
(गोविन्द गुर्जर)
पिता—कन्हैयालाल गुर्जर.

(G-285)

नाम परिवर्तन

मैं, ज्योति ग्रोवर पुत्री स्व. श्री सुशील कुमार बजाज, निवासी—वार्ड नं.—6, खालवारा बजार, कैमोर, खलवारा कटनी, (म.प्र.). मेरा विवाह जितेन्द्र ग्रोवर के साथ हुआ जिस कारण मेरा सरनेम ज्योति बजाज से ज्योति ग्रोवर हो गया है, किन्तु मेरे समस्त शैक्षणिक अभिलेखों में मेरा नाम कहीं पर केवल ज्योति एवं कहीं पर ज्योति बजाज ही लिखा हुआ है. अतः प्रकाशन उपरांत भविष्य में मेरे सभी शासकीय / अर्द्धशासकीय एवं समस्त दस्तावेजों में सही नाम ज्योति ग्रोवर (JYOTI GROVER) से जाना—पहचाना व लिखा—पढ़ा एवं दर्ज किया जावे.

पुराना नाम
(ज्योति, ज्योति बजाज)

नया नाम
(ज्योति ग्रोवर)
(JYOTI GROVER)

(G-286)

नाम परिवर्तन

मैं, निशा कनौजिया (Nisha Kanojiya) पिता श्री राजू कनौजिया, निवासी RB 09, फेस -1, इंडस टाउन, रत्नपुर, होशंगाबाद रोड, भोपाल (म.प्र.). मेरी 10वीं एवं 12वीं की मार्कशीट में मेरा नाम (Nisha Kanojia) D/o (Raju Kanojia) एवं माता (Ramkali Kanojia) है. जो कि गलत है. सही नाम (Nisha Kanojiya) D/o (Raju Kanojiya) एवं माता (Ramkali Kanojiya) है. भविष्य में मुझे सभी सरकारी व गैर सरकारी दस्तावेजों में इसी नाम से जाना व पहचाना जाए.

(निशा कनौजिया)

पिता—श्री राजू कनौजिया.

(G-287)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री लक्ष्मी मुखरैया पुत्री श्री भगवत शरण मुखरैया, निवासी ग्राम व पोस्ट चीचोली सिलवानी रमपुरा खुर्द, जिला—रायसेन (म.प्र.). मेरी पुत्री का नाम लक्ष्मी मुखरैया है. मेरी पुत्री के आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरी पुत्री का नाम वेदीका मुखरइया लिखा गया है. जबकि मेरे पुत्री लक्ष्मी मुखरैया है. आवश्यक दस्तावेज जैसे शैक्षणिक दस्तावेज एवं जन्म प्रमाण—पत्र आदि पर मेरी पुत्री का नाम लक्ष्मी मुखरैया लिखा हुआ है. मेरी पुत्री को लक्ष्मी मुखरैया के नाम से ही जाना—पहचाना जाता है.

पुराना नाम

(वेदीका मुखरइया)

(G-288)

नया नाम

(लक्ष्मी मुखरैया)

पिता—श्री भगवत शरण मुखरैया.

नाम परिवर्तन

मैं, बिरेन्द्र चौहान पुत्री बादामी लाल चौहान सर्वसाधारण को सूचित करता हूँ कि मेरे पुत्र का नाम “वात्सल्य चौहान (VATSALYA CHOUHAN)” है. जो मेरे पुत्र के समस्त शासकीय दस्तावेज जैसे जन्म प्रमाण—पत्र एवं शैक्षणिक दस्तावेजों में लिखा है, परन्तु मेरे पुत्र का पूर्व नाम ‘वाशु चौहान’ जो मेरे पुत्र के आधार कार्ड में त्रुटिवश लिखा गया है, मेरा पुत्र “वात्सल्य चौहान (VATSALYA CHOUHAN) पुत्र बिरेन्द्र चौहान (BIRENDRA CHOUHAN)” के नाम से जाना—पहचाना जाता है, तथा वात्सल्य चौहान एवं वाशु चौहान मेरे पुत्र के ही नाम हैं. प्रकाशन उपरांत “वात्सल्य चौहान (VATSALYA CHOUHAN)” पहचाना एवं दर्ज किया जावे.

प्रार्थी

(बिरेन्द्र चौहान).

(G-289)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, वीरेन्द्र कुशवाहा, पुत्र स्व. श्री राजकुमार कुशवाहा, निवासी बजरा घाट के पास मनोरमा वार्ड बीना स्टेशन, जिला सागर (म.प्र.). मेरा वास्तविक नाम वीरेन्द्र कुशवाहा (VEERENDRA KUSHWAHA) है, त्रुटिवश आधार कार्ड में मेरा नाम वीरेन्द्र (VIRENDRA) हो गया था, अब मैं, अपने नये नाम वीरेन्द्र कुशवाहा (VEERENDRA KUSHWAHA) के नाम से जाना जाऊंगा एवं सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में मेरा यही नाम रहेगा.

पुराना नाम

(वीरेन्द्र)

(VIRENDRA)

(G-290)

नया नाम

(वीरेन्द्र कुशवाहा)

(VEERENDRA KUSHWAHA)

नाम परिवर्तन

मैं, पंकज सिंह पुत्र श्री लखन सिंह ठाकुर, निवासी—रामनगर, तहसील—इछावर, जिला—सीहोर (म.प्र.). मेरे पुत्र के आधार कार्ड पर त्रुटिवश प्रयांश ठाकुर दर्ज हो गया है. जो कि गलत है, जबकि उसके जन्म प्रमाण—पत्र और शैक्षणिक दस्तावेजों पर अंशुल ठाकुर (ANSHUL THAKUR) नाम दर्ज है. जो कि सही है प्रकाशन उपरांत भविष्य में मेरे पुत्र के सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय/व्यक्तिगत कार्यवाही एवं समस्त दस्तावेजों में सही नाम अंशुल ठाकुर (ANSHUL THAKUR) पुत्र पंकज सिंह से जाना—पहचाना व लिखा—पढ़ा एवं दर्ज किया जावे.

पुराना नाम
(प्रयांश ठाकुर)
(G-291)

नया नाम
(अंशुल ठाकुर)
(ANSHUL THAKUR)
पुत्र—पंकज सिंह.

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि सेंट्रल नोटरी में आवेदन करते समय मेरा नाम अनंत पांडे गलत अंकित हो गया है. जबकि मेरे सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय व राज्य अधिवक्ता परिषद् के सभी दस्तावेजों में मेरा नाम अनंत कृष्ण राव पांडे आत्मज श्री के. वाई. पांडे है. अतः मेरे सेंट्रल नोटरी के आवेदन—पत्र में मेरा नाम अनंत कृष्ण राव पांडे आत्मज श्री के. वाई. पांडे के नाम से ही जाना—पहचाना एवं दर्ज किया जावे.

आवेदक
(अनंत कृष्ण राव पांडे)
पिता—के. वाई. पांडे,
पता—शहीद द्वार रोड, अक्षर नंदन विद्यालय के पास,
सावरकर वार्ड, कटनी, (म.प्र.).

(G-292)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है मैं, फारूक शाह (Farooq Shah) पिता बहादुर शाह (Bahadur Shah), निवासी—हरदा, जिला हरदा (म.प्र.). जो मेरे आधार कार्ड, वोटर आईडी तथा अन्य दस्तावेजों पर दर्ज है. मेरे पेन कार्ड में (MOHAMAD FARUQ) और पिता का नाम (GULAM HHEDAR) दर्ज है. जो पुराना नाम है. अब मैंने अपना नाम बदल कर फारूक शाह (Farooq Shah) पिता बहादुर शाह (Bahadur Shah) रख लिया है. अब वर्तमान एवं भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना—पहचाना और संबोधित किया जाए.

पुराना नाम
(MOHAMAD FARUQ)

नया नाम
(FAROOQ SHAH)
फारूक शाह
पिता—बहादुर शाह
(Bahadur Shah)

(G-293)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, आसमा मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम बजमे आरा खातून (BAJME ARA KHATUN) गलत अंकित हो गया है। अतः मेरा सही नाम आसमा खातून (AASMA KHATUN) है। प्रकाशन उपरांत मुझे मेरा सही नाम आसमा खातून (AASMA KHATUN) के नाम से सभी शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में लिखा—पढ़ा एवं दर्ज किया जावे।

पुराना नाम (बजमे आरा खातून) (BAJME ARA KHATUN)	नया नाम (आसमा खातून) (AASMA KHATUN).
--	--

(G-294)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता हैं कि मैं, कल्लो बाई (KALLO BAI) मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम सितारा (SITARA) गलत अंकित हो गया है। अतः मेरे सभी शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में मेरा नाम कल्लो बाई (KALLO BAI) दर्ज है। प्रकाशन उपरांत मुझे मेरे सही नाम कल्लो बाई (KALLO BAI) के नाम से जाना—पहचाना एवं दर्ज किया जावे।

पुराना नाम (सितारा) (SITARA)	नया नाम (कल्लो बाई) (KALLO BAI) पत्नी—सलीम खान, पता—अमखेड़ा नई सराय, निसरै, अशोक नगर (म.प्र.).
------------------------------------	---

(G-295)

नाम परिवर्तन

मैं, मो. फरहान आत्मज श्री अब्दुल कुद्दुस मां श्रीमती शबाना बी (MOHD FARHAAN S/o ABDUL KUDDUS M/o SHABANA BEE), आयु वयस्क, निवासी—169, अंकुर कॉम्प्लेक्स की झुग्गी, शिवाजी नगर, भोपाल (म.प्र.). मेरा पूर्व का नाम फरहान फैसल पुत्र अब्दुल कुद्दुस मां श्रीमती शबाना परवीन (FARHAN FAISAL S/o ABDUL KUDADUS, Mother SHABANA PARVEEN) त्रुटिवश अंकित हो गया था, मेरे समस्त दस्तावेजों में मेरा नाम (MOHD FARHAAN S/o ABDUL KUDDUS MOTHER SMT. SHABANA BEE) ही है। यह दोनों नाम मेरे ही अर्थात् एक ही व्यक्ति के हैं। मुझे मेरे सही नाम मोहम्मद फरहान आ. अब्दुल कुद्दुस (MOHD FARHAAN S/o ABDUL KUDDUS, MOTHER SMT. SHABANA BEE) के नाम से जाना व पहचाना जावे।

पुराना नाम (फरहान फैसल)	नया नाम (मो. फरहान) आत्मज—श्री अब्दुल कुद्दुस.
----------------------------	--

(G-296)

नाम परिवर्तन

मैं, रघुनाथ साहू पुत्र मूलचंद साहू, निवासी वार्ड नं. 6, ग्राम ककरावदा, गंजबासौदा, जिला विदिशा (म.प्र.). यह कि मेरे पुत्र के आधार कार्ड में त्रुटिवश लोकेश साहू नाम दर्ज हो गया है, जो कि गलत है. जबकि मेरे पुत्र का सही नाम लक्ष्मीनारायण साहू (LAXMINARAYAN SAHU) पुत्र रघुनाथ साहू है. अतः प्रकाशन उपरांत भविष्य में मेरे पुत्र के सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय/व्यक्तिगत कार्यवाही एवं समस्त दस्तावेजों में सही नाम लक्ष्मीनारायण साहू (LAXMINARAYAN SAHU) पुत्र रघुनाथ साहू के नाम से जाना—पहचाना व लिखा—पढ़ा जावे.

पुराना नाम
(लोकेश साहू)

नया नाम
(लक्ष्मीनारायण साहू)
(LAXMINARAYAN SAHU)

पुत्र—रघुनाथ साहू

(G-297)

नाम परिवर्तन

मैं, बद्री प्रसाद पुत्र श्री बहादुर, निवासी—ग्राम सुआखेड़ा, पंचायत—मोयापानी, पोर्ट—बोरदीकलाँ, तहसील—इछावर, जिला—सीहोर, (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश बजरिया नाम दर्ज हो गया है, जबकि मेरा सही नाम बद्री प्रसाद BADRI PRASAD पुत्र बहादुर है. जो मेरे सभी दस्तावेजों में दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरांत भविष्य में मेरे सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय/व्यक्तिगत कार्यवाही एवं समस्त दस्तावेजों में सही नाम बद्री प्रसाद BADRI PRASAD पुत्र बहादुर के नाम से जाना—पहचाना वा लिखा—पढ़ा जावे.

पुराना नाम
(बजरिया)

नया नाम
(बद्री प्रसाद)
(BADRI PRASAD)

पुत्र—बहादुर.

(G-298)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम विनीत कुमार कंजर (जाट) (VINEET KUMAR KANJAR) (JAT) एवं पिता का नाम गणेश प्रसाद कंजर (जाट) (GANESH PRASAD KANJAR) (JAT) अंकित है एवं मेरे आधार कार्ड, पेन कार्ड एवं मेरे शिक्षा संबंधी प्रमाण—पत्रों में मेरा नाम विनीत जाट (VINEET JAT) एवं पिता का नाम गणेश प्रसाद जाट (GANESH PRASAD JAT) अंकित है. ये दोनों नाम मेरे स्वयं के हैं. प्रकाशन उपरांत मेरे सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय एवं अन्य प्रपत्रों में मेरा नाम विनीत जाट (VINEET JAT) पिता गणेश प्रसाद जाट (GANESH PRASAD JAT) के नाम से जाना—पहचाना, लिखा—पढ़ा जावे.

पुराना नाम
(विनीत कुमार कंजर जाट)

नया नाम
(विनीत जाट)
पिता—गणेश प्रसाद जाट
पता—म. नं. 637, ईस्ट बेलबाग, घमापुर चौक,
कंजर मोहल्ला, महर्षि अरविंद वार्ड,
थाना बेलबाग, जिला जबलपुर (म.प्र.).

(G-299)

नाम परिवर्तन

आम जनता को सूचित किया जाता है कि मैं, राकेश कुमार बसोर आत्मज श्री हीरा लाल बसोर, निवासी आर. बी. 2 सी. एच. टाईप 06, ब्लॉक बासुरी, ओल्ड फैमली लाईन, ६वीं बटालियन, एस. ए. एफ. रांझी, तहसील व जिला जबलपुर. मेरे सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम राकेश कुमार बसोर एवं पिता का नाम हीरा लाल बसोर दर्ज है. मेरे आधार कार्ड, पेनकार्ड परिचय-पत्र समग्र आई. डी., मूल निवासी प्रमाण-पत्र में मेरा नाम राकेश कुमार बेन आत्मज श्री हीरा लाल बेन दर्ज है. प्रकाशन उपरांत मुझे राकेश कुमार बेन एवं पिता का नाम हीरा लाल बेन नाम से जाना-पहचाना एवं लिखा-पढ़ा जावे.

पुराना नाम
(राकेश कुमार बसोर)

नया नाम
(राकेश कुमार बेन)
पिता—हीरा लाल बेन.

(G-300)

नाम परिवर्तन

मैं, अखिलेश काशिव आत्मज श्री बालकृष्ण काशिव उम्र 54 वर्ष, निवासी म. नं. 5, वर्धमान ग्रीन सिटी, अयोध्या बायपास रोड, भोपाल, पिन-462041. यह घोषणा करता हूँ कि मैं अपनी पुत्री लावण्या काशिव. जिसका हम नाम परिवर्तित करते हुये नया नाम मनस्विनी काशिव (Manaswini Kashiv) रख रहे हैं. प्रकाशन उपरांत लावण्या काशिव की जगह मनस्विनी काशिव के नाम से जानी-पहचानी जायेगी.

प्रार्थी
(अखिलेश काशिव).

(G-301)

नाम परिवर्तन

मैं, सोनिया धुर्व W/o स्व. श्री मनीष धुर्व, निवासी ग्राम चापलसर, तहसील माखन नगर (बाबई), जिला—नर्मदापुरम (म.प्र.). मेरी पुत्री का नाम नवी धुर्व (Navi Dhurvey) Aadhar Card में नाम गलत हो गया है. प्रकाशन उपरांत सही वैष्णवी धुर्व (Vaishnavi Dhurvey) नाम से जाना व पहचाना जावे.

आवेदक
(सोनिया धुर्व)
W/o स्व. श्री मनीष धुर्व.

(G-302)

नाम परिवर्तन

मैं, किरणबाला पिता हवसिंह सिंगाड़, निवासी—ग्राम मकोड़िया, तहसील थांदला, जिला झाबुआ (म.प्र.). मेरा विवाह अतुल पिता पेमा भाबोर से हुआ है. प्रकाशन उपरांत मुझे अतुल भाबोर पत्नी किरण बाला भाबोर के नाम से जाना-पहचाना एवं दर्ज किया जावे.

प्रार्थी
(किरणबाला भाबोर)
पत्नी—अतुल भाबोर.
निवासी—ग्राम पारेवा, तहसील पेटलावद,
जिला झाबुआ (म.प्र.).

(G-303)

नाम परिवर्तन

सूचित हो, मेरा वास्तविक व सही नाम संगीता चौकसे पति श्री मुकेश चौकसे (SANGEETA CHOUKSE W/o SHRI MUKESH CHOUKSE) है व मेरा पूर्व नाम खुशबू चौकसे पति श्री मुकेश चौकसे है. इस प्रकार उक्त दोनों नाम मेरे ही होकर एक ही व्यक्ति के नाम है. प्रकाशन उपरांत में अपने सही नाम “संगीता चौकसे पति श्री मुकेश चौकसे (SANGEETA CHOUKSE W/o SHRI MUKESH CHOUKSE)” से जानी—पहचानी व संबोधित की जाऊंगी.

प्रार्थी
(संगीता चौकसे)
(SANGEETA CHOUKSE)
पति—श्री मुकेश चौकसे (MUKESH CHOUKSE)
पता—6/7, परदेशीपुरा, इन्दौर (म.प्र.).

(G-304)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, रेखा गुप्ता पति रितेश गुप्ता, स्थायी निवासी—69/8 अशोक मंडी मार्ग, आगर रोड, उज्जैन (म.प्र.). हालमुकाम 24, विध्यानगर, सांवेर रोड, उज्जैन (म.प्र.). मेरी पुत्री प्रिशा गुप्ता के शैक्षणिक दस्तावेज में सोनल गुप्ता नाम अंकित हो गया है, मेरा वास्तविक नाम रेखा गुप्ता ही है. मेरी पुत्री के दस्तावेज में भी भिन्नता कारित हुई हैं, मैंने मेरा नाम सोनल गुप्ता के स्थान पर केवल रेखा गुप्ता नाम कर लिया है. प्रकाशन उपरांत मुझे केवल रेखा गुप्ता पति रितेश गुप्ता के नाम से जाना व पहचाना जावे एवं शासकीय, अर्द्धशासकीय, अशासकीय, कार्यालयों, व्यावसायिक व सामाजिक सभी जगह और सभी प्रकार के दस्तावेजों, अंकसूचियों, प्रमाण—पत्रों में लिखा—पढ़ा दर्ज किया जावें.

पुराना नाम (सोनल गुप्ता)	नया नाम (रेखा गुप्ता)
-----------------------------	--------------------------

(G-305)

New Name
(KRISHNA SHUKLA)

Old Name
(RUDRA SHUKLA)

(G-306)

नाम परिवर्तन

मैं, मुस्ताफ रजा अत्तारी पिता बंसतराम, निवासी वार्ड नम्बर 14, पुरानी बस्ती जैतहरी, जिला अनूपपुर (म.प्र.) का पुस्तैनी निवासी हूँ सर्वसाधारण को सूचित करता हूँ मेरे पुत्र का पूर्व नाम अब्दुल रहमान अत्तारी पिता नागकेसर चौधरी, जन्म प्रमाण—पत्र में अंकित है, नया नाम अब्दुल रहमान अत्तारी पिता मुस्तफा रजा अत्तारी कर लिया गया है एवं इसी नाम से जाना—पहचाना एवं पुकारा जाने लगा है, अतः मेरे पुत्र के जन्म प्रमाण—पत्र में व शासकीय/अर्द्धशासकीय अन्य प्रपत्रों में पुत्र के पूर्व नाम के स्थान पर अब्दुल रहमान अत्तारी पिता मुस्तफा रजा अत्तारी लिखा एवं पढ़ा जावें.

प्रार्थी
सरक्षक—(मुस्तफा रजा अत्तारी).
MUSTAFA RAZA ATTARI.

(G-307)

नाम परिवर्तन

मैं, मुस्ताफ रजा अत्तारी पिता बंसतराम, निवासी वार्ड नम्बर 14, पुरानी बस्ती जैतहरी, जिला अनूपपुर (म.प्र.) का निवासी हूँ। सर्वसाधारण को सूचित करता हूँ मेरी पुत्री का पूर्व नाम जया चौधरी पिता नागकेसर चौधरी, जन्म प्रमाण-पत्र में व आधार कार्ड में अंकित है, नया नाम सना फातिमा पिता मुस्तफा रजा अत्तारी कर लिया गया है। प्रकाशन उपरांत मेरी पुत्री के जन्म प्रमाण-पत्र में शासकीय/अद्वैशासकीय अन्य प्रपत्रों में पुत्री के पूर्व नाम के स्थान पर सना फातिमा पिता मुस्तफा रजा अत्तारी लिखा एवं पढ़ा जावे।

प्रार्थी
सरकारी—(मुस्तफा रजा अत्तारी).

(G-308)

नाम परिवर्तन

मैं, श्रीमती प्रीति संजय कुमार पत्नि श्री संजय कुमार सर्वसाधारण को सूचित करती हूँ। मेरा शादी के पूर्व का नाम प्रीति पडवार (PRITI PADWAR) दर्ज है एवं शादी के बाद मेरा नाम श्रीमती प्रीति संजय कुमार (PRITI SANJAY KUMAR) हो गया है। मेरे समस्त शासकीय/अद्वैशासकीय दस्तावेजों में मेरा नाम श्रीमती प्रीति संजय कुमार (PRITI SANJAY KUMAR) है। प्रकाशन उपरांत मुझे श्रीमती प्रीति संजय कुमार (PRITI SANJAY KUMAR) के नाम से ही जाना—पहचाना, लिखा—पढ़ा एवं पुकारा जाये।

पुराना नाम
(प्रीति पडवार)
(PRITI PADWAR)

नया नाम
(प्रीति संजय कुमार)
(PRITI SANJAY KUMAR)
पत्नी—श्री संजय कुमार,
निवासी—207, ब्लॉक सी, दत्त टाउनशिप, तिलहरी,
वार्ड 67, वीररागना आवंती बाई बिलहरी,
जिला जबलपुर (म.प्र.).

(G-309)

नाम परिवर्तन

मैं, मधुसूदन बुधवानी (MADHUSUDAN BUDHWANI) पिता स्व. घनश्यामदास बुधवानी (GYHANSHAMDAS BUDHWANI) मेरे पूर्व का नाम मधु सिंधी (MADHU SINDHI), पप्पू सिंधी (PAPU SINDHI), पप्पी सिंधी (PAPPY SINDHI) व पड़ू सिंधी (PADU SINDHI) हैं, इन्हीं चालू नामों से मुझे जाना—पहचाना जाता है। मेरे शेयर सर्टिफिकेटों में यही नाम अंकित है। मधुसूदन बुधवानी, मधु सिंधी, पप्पू सिंधी, पप्पी सिंधी व पड़ू सिंधी (आत्मज स्व. घनश्यामदास बुधवानी) एक ही व्यक्ति के हैं। यानि कि मेरे प्रकाशन के उपरांत मुझे मधुसूदन बुधवानी (MADHUSUDAN BUDHWANI) पिता स्व. घनश्यामदास बुधवानी के नाम से ही जाना—पहचाना एवं लिखा—पढ़ा जाए।

पुराना नाम
(मधु सिंधी, पप्पू सिंधी,
पप्पी सिंधी व पड़ू सिंधी)

नया नाम
(मधुसूदन बुधवानी)
(MADHUSUDAN BUDHWANI)
पिता—स्व. घनश्यामदास बुधवानी,
निवासी—मार्ग वार्ड नं. 2, स्टेशन रोड
दमोह (म.प्र.).

(G-310)

CHANGE OF NAME

I, Shantilal Rathore inform the General Public that earlier my name was SHANTILAL RATHOR S/o RAMLAL RATHOR which is mentioned on some of my official/ non-official documents but I have changed my name to SHANTILAL RATHORE S/o RAMLAL RATHORE which is mentioned on my pan card. Therefore in future, I, should be known, recognized, read, written and addressed by my changed name SHANTILAL RATHORE S/o RAMLAL RATHORE and it should be recorded in all government/ non-government documents.

Old Name	New Name
(SHANTILAL RATHOR)	(SHANTILAL RATHORE)
(G-311)	S/o Ramlal Rathore, Address-Ward No.6, By Pass Road, Gayatri Colony, Dharampuri, District Dhar (M.P.).

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि विवाह पूर्व मेरा नाम अरवा एम नीमचवाला (ARWA M NEEMUCHWALA) पिता श्री मुमताज अली बोहरा था, श्री सोमेश शर्मा से विवाह के उपरान्त मेरा नाम अरवा सोमेश शर्मा (ARWA SOMESH SHARMA) हो गया था, जो मेरे पूर्व के आधार कार्ड पर अंकित था, किन्तु माननीय न्यायालय द्वारा सोमेश शर्मा से विवाह विच्छेद उपरान्त पुनः मेरा नाम अरवा एम नीमचवाला (ARWA M NEEMUCHWALA) पिता श्री मुमताज अली बोहरा हो गया है. जो मेरे आधार कार्ड पर अंकित है, अतः भविष्य में मेरे सभी दस्तावेजों पर अरवा सोमेश शर्मा के स्थान पर अरवा एम नीमचवाला लिखा—पढ़ा जावे एवं इसी नाम से जाना—पहचाना व सम्बोधित किया जावे.

<p style="text-align: center;">पुराना नाम (अरवा सोमेश शर्मा) (ARWA SOMESH SHARMA)</p>	<p style="text-align: center;">नया नाम (अरवा एम नीमचवाला) (ARWA M NEEMUCHWALA) पिता—श्री मुमताज अली बोहरा, पता—42, बोहरा बाजार, नीमच (म.प्र.).</p>
---	--

(G-312)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा वास्तविक व सही नाम भूपेन्द्र अन्डेल (BHUPENDRA ANDEL) पिता गेन्दालाल अन्डेल है. जो कि सही व सत्य है तथा मेरे वोटर कार्ड, पेन कार्ड एवं मेरी अंकसूची पर भी दर्ज है. किन्तु मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम प्रदीप (PRADEEP) पिता सीताराम दर्ज हो गया है. अतः भविष्य में मुझे मेरे सही नाम भूपेन्द्र अन्डेल (BHUPENDRA ANDEL) पिता गेन्दालाल अन्डेल के नाम से जाना—पहचाना व सम्बोधित किया जावे.

<p style="text-align: center;">पुराना नाम (प्रदीप) (PRADEEP)</p>	<p style="text-align: center;">नया नाम (भूपेन्द्र अन्डेल) (BHUPENDRA ANDEL) पिता—गेन्दालाल अन्डेल, पता—176, स्लाईस 4, सेक्टर बी, स्कीम नं. 78, इन्दौर (म.प्र.).</p>
--	---

(G-313)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम नवीन छेडा (NAVIN CHHEDA) पिता श्री हंसराज छेडा है, जो की मेरे पेन कार्ड पर दर्ज है. किन्तु मेरे कुछ दस्तावेजों पर मेरा नाम छेडा नवीन कुछ पर नवीन कुछ पर नवीन एच छेडा कुछ पर शा नवीनचन्द्र हंसराज, नवीनचन्द्र हंसराज शाह दर्ज हो गया है, अतः भविष्य में मुझे मेरे सही नाम नवीन छेडा (NAVIN CHHEDA) पिता श्री हंसराज छेडा के नाम से जाना—पहचाना व सम्बोधित किया जावे.

<p>पुराना नाम (छेडा नवीन) (CHHEDA NAVIN)</p> <p>(G-314)</p>	<p>नया नाम (नवीन छेडा) (NAVIN CHHEDA) पिता—श्री हंसराज छेडा, निवासी—406, शांतिकुंज अपार्टमेन्ट 194/4/1, चितावद रोड, इन्दौर (म.प्र.).</p>
---	--

नाम परिवर्तन

मैं, रंजीता सिंह पत्नी अतुल सिंह, निवासी—हाउस नं. 293, खटीक मोहल्ला, लोकमान्य तिलक वार्ड, जिला जबलपुर (म.प्र.), मेरे पुत्र रेयान प्रताप सिंह है. जन्म के समय मेरे पुत्र का नाम रेयान प्रताप सिंह पिता अतुल सिंह था. परंतु आधार कार्ड में नाम युवराज सिंह हो गया है. जो त्रुटिपूर्ण हैं. समस्त शासकीय दस्तावेजों में मेरे पुत्र का नाम रेयान प्रताप सिंह है. आधार कार्ड में प्रकाशन उपरांत रेयान प्रताप सिंह ही युवराज सिंह लिखा—पढ़ा दर्ज किया जावे.

<p>(G-315)</p>	<p>प्रार्थीनी (रंजीता सिंह) पति—अतुल सिंह.</p>
----------------	--

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि, पूर्व में मेरा नाम श्रीमती पप्पू चौहान था. मैंने अपना नाम बदलकर मिनाश्री राठौर पति प्रताप सिंह राठौर (MINAKSHI RATHORE W/o PARTAP SINGH RATHORE) कर लिया है. मेरे पुत्र के शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में यही नाम दर्ज है. अतः भविष्य में मुझे मिनाश्री राठौर पति प्रताप सिंह राठौर (MINAKSHI RATHORE W/o PARTAP SINGH RATHORE) के नाम से जाना—पहचाना एवं समझा जावे.

<p>पुराना नाम (पप्पू चौहान) पति—स्व. आकाश चौहान</p> <p>(G-316)</p>	<p>नया नाम (मिनाश्री राठौर) (MINAKSHI RATHORE) पति—प्रताप सिंह राठौर, W/o-PARTAP SINGH RATHORE.</p>
--	---

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि, मेरा नाम श्रीमती प्रतिभा मोघे पति प्रभाकर मोघे है, परन्तु त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड व परिचय—पत्र में प्रतिभा पुष्पलता मोघे हो गया है, जो कि, गलत है. मेरा सही नाम प्रतिभा मोघे पति प्रभाकर (PRATIBHA MOGHE W/o PRABHAKAR MOGHE) है. मेरे समस्त शासकीय दस्तावेजों में यही नाम दर्ज है. मुझे इसी नाम से जाना—पहचाना एवं समझा जाता है.

<p>पुराना नाम (प्रतिभा पुष्पलता मोघे)</p> <p>(G-317)</p>	<p>नया नाम (प्रतिभा मोघे) (PRATIBHA MOGHE) पति—प्रभाकर मोघे, W/o-PRABHAKAR MOGHE.</p>
--	---

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा नाम विनायक किबे पिता स्व. दत्तात्रेय किबे है, किन्तु मेरे शासकीय अभिलेखों में मेरा पूर्व का नाम विजय किबे दर्ज हो गया है. जो कि गलत है. मेरा सही नाम विनायक किबे पिता स्व. दत्तात्रेय किबे (VINAYAK KIBE S/o DATTATRAYA KIBE) हो गया है. मुझे इसी नाम से जाना—पहचाना एवं समझा जाता है.

पुराना नाम (विजय किबे)	नया नाम (विनायक किबे) (VINAYAK KIBE) पिता—स्व. दत्तात्रेय किबे S/o-DATTATRAYA KIBE पता—एन / 80, अनुप नगर, इन्दौर (म.प्र.). (G-318)
---------------------------	---

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि, मेरे पुत्र के आधार कार्ड में मेरे पुत्र का नाम त्रुटिवश—दक्ष गोपाल राठौर पिता गोपाल दर्ज हो गया है, जो कि गलत है, मेरे पुत्र का नाम परिवर्तन करके गुनवीत राठौर पिता गोपाल राठौर (GUNVIT RATHOR S/o GOPAL RATHOR) हो गया है. मेरे पुत्र के शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में यही नाम दर्ज है. जो कि सही है. भविष्य में मेरे पुत्र को गुनवीत राठौर पिता गोपाल राठौर (GUNVIT RATHOR S/o GOPAL RATHOR) के नाम से जाना—पहचाना एवं समझा जावे.

प्रार्थी (गोपाल राठौर) पिता—शिवनारायण राठौर, पता—21, शिखरजी झीमज, अरण्डीया, इन्दौर (म.प्र.). (G-319)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है, कि मैं, दिनेश सिंह पिता श्री रणवीरसिंह, निवासी, 80 शिक्षक कॉलोनी, बदनावर जिला धार (म.प्र.). मेरे शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों एवं शैक्षणिक दस्तावेजों में मेरा नाम दिनेश पिता रणवीर सिंह और दिनेश सिंह पिता रणवीर सिंह और दिनेश सिंह भदौरिया पिता रणवीर सिंह भदौरिया अंकित है. उक्त तीनों नाम एक ही व्यक्ति हैं, प्रकाशन उपरांत मुझे दिनेश सिंह भदौरिया पिता श्री रणवीर सिंह भदौरिया के नाम से जाना व पहचाना व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम (दिनेश सिंह)	नया नाम (दिनेश सिंह भदौरिया) पिता—रणवीर सिंह भदौरिया.
----------------------------	---

(G-320)

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

कार्यालय, पंजीयक, लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.), मंडला, मध्यप्रदेश
मंडला, दिनांक 10 जनवरी 2025

प्रारूप क्र. 4

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा 5 की उपधारा (2) और

मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 के नियम 5(1) के द्वारा]

लोक न्यासों के पंजीयक मण्डला जिला के समक्ष।

क्र.—आ.वि.अ—प्र.—1—2025—60 0002—ब—113(4)—2024—25.—यतः कि धीरज अग्रवाल पुत्र राधेश्याम अग्रवाल, निवासी—शंकर नगर, राजीव कॉलोनी, मंडला, तहसील व जिला मंडला ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा 4 के अन्तर्गत एक आवेदन अनुसूची में विनिर्दिष्ट संपत्ति के लिए लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किये जाने के लिये आवेदन किया है, एतद्वारा सूचना—पत्र दिया जाता है कि कथित आवेदन पर 7 जनवरी 2025 दिवस पर मेरे न्यायालय में विचार में लिया जाएगा।

अतः मैं, सोनल सिडाम, जिला मंडला के लोक न्यासों का पंजीयक अपने न्यायालय में दिनांक 7 दिसम्बर 2024 को उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) के द्वारा यथाअपेक्षित जांच करना प्रस्थापित करता हूँ।

अतः एतद्वारा सूचना दी जाती है कि किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुए कथित न्यास या संपत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति इस सूचना—पत्र के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत कर सकता है, और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए। उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जाएगा।

(G-321)

सोनल सिडाम, पंजीयक एवं अनुविभागीय अधिकारी।

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), अनुभाग व्यावरा, जिला राजगढ़, मध्यप्रदेश
व्यावरा, दिनांक 8 जनवरी 2025

प्रारूप क्र. 4

[नियम—5(1) देखिए]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) और

मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम के नियम 5(1) के द्वारा]

लोक न्यासों के पंजीयक अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) व्यावरा, जिला राजगढ़ के समक्ष।

क्र.—3220—प्रवा.—2—2025.—यह कि बालकिशन पिता छोटेलाल, जाति ब्राह्मण, निवासी—वार्ड क्रमांक 6, अपना नगर, व्यावरा, जिला राजगढ़ (म.प्र.)—465674 के द्वारा मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा 4 के अन्तर्गत एक आवेदक अनुसूची में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति के लिये लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किए जाने के लिए आवेदन किया है। एतद्वारा सूचना—पत्र दिया जाता है कि कथित आवेदन दिनांक 17 फरवरी 2025 को मेरे न्यायालय में विचार में लिया जावेगा।

किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुए कथित न्यास या सम्पत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति को इस सूचना—पत्र के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिये और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए, उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जावेगा।

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता व सम्पत्ति का विवरण)

लोक न्यास का नाम	:	ब्राह्मण समाज परशुराम धाम पारमार्थिक न्यास (ट्रस्ट) लोक न्यास (ट्रस्ट), वार्ड क्रमांक 06, अपना नगर, ब्यावरा, जिला राजगढ़ (म.प्र.)—465674.
चल सम्पत्ति	:	4000/- (चार हजार रुपये).
अचल सम्पत्ति	:	निरंक

(G-322)

गीतांजली शर्मा, अनुविभागीय अधिकारी.

कार्यालय, रजिस्ट्रार ऑफ पब्लिक ट्रस्ट अधिकारी, उज्जैन नगर, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश

उज्जैन, दिनांक 26 दिसम्बर 2024

प्रारूप—चार

[नियम 5(1) देखिए]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1959 (1951 का 30) की धारा 5 की उपधारा (2)

मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 का नियम 5(1) देखिए]

पंजीयक, लोक न्यास, उज्जैन,

जिला उज्जैन के समक्ष.

क्र.—एसडीएम नगर—रीडर—1—2024—357.—चूंकि, आवेदक श्री सौभाग्य सिंह ठाकुर पिता श्री सज्जनसिंह ठाकुर न्यासी, “अवन्तिका प्रकाश न्यास” कार्यालय—सम्राट विक्रमादित्य भवन प्रशिक्षण, शैक्षिक अनुसंधान केन्द्र एवं प्रातीय कार्यालय, चिंतामण गणेश मंदिर, मार्ग उज्जैन ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा 4 के अन्तर्गत एक आवेदन अनुसूची में लोक न्यास के रूप में पंजीकृत कराने के लिये आवेदन किया है, एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि आवेदक मेरे न्यायालय में दिनांक 30 जनवरी 2025 को दोपहर 03:00 बजे स्थान—सम्राट विक्रमादित्य प्रशासनिक संकुल भवन के सामने स्थित संयुक्त तहसील भवन कोठी महल के प्रथम तल के कक्ष क्रमांक—104 में विचार के लिए लिया जावेगा।

कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या संपत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में की आपत्तियां करने या सुझाव देने का विचार रखता हो उसे इस सूचना लोक न्यास है और उसका गठन करती है।

अतः, मैं, पंजीयक, लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.), उज्जैन नगर, जिला उज्जैन का लोक न्यासों का पंजीयक अपने न्यायालय में दिनांक 30 जनवरी 2025 को उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) के द्वारा यथाअपेक्षित जांच करना प्रस्थापित करता हूँ।

अतः, एतद्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या संपत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यवाही, न्यासधारी या उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति का सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करता और कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिशः या अभिभाषक या अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिए। उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिये ग्राह्य नहीं किया जाएगा।

अनुसूची

(लोक न्यास की सम्पत्ति का वर्णन, लोक न्यास का नाम और पता)

न्यास का नाम	:	“अवन्तिका प्रकाशन न्यास”
कार्यालय	:	समाट विक्रमादित्य भवन प्रशिक्षण, शैक्षिक अनुसंधान केन्द्र एवं प्रांतीय कार्यालय, चिंतामण गणेश मंदिर, मार्ग उज्जैन (म.प्र.)
अचल सम्पत्ति	:	वर्तमान में न्यास ने अपने पास अचल संपत्ति शून्य दर्शाई है.
चल सम्पत्ति	:	वर्तमान में न्यास ने अपने पास चल संपत्ति 1,000/- दर्शाई है. लक्ष्मीनारायण गर्ग, पंजीयक एवं अनुविभागीय अधिकारी.

(G-323)

अन्य सूचनाएं

कार्यालय, परिसमापक, सहकारी संस्थाएं, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश

इंदौर, दिनांक 16 नवम्बर 2024

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज के नियम, 1962 के उपनियम 57(1) (सी/ग) के अन्तर्गत]

कार्यालय, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला इन्दौर के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज, अधिनियम, 1960 की धारा 60(2) के अंतर्गत निम्न सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाई जाकर धारा 70(1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्र./दिनांक	परिसमापन का आवेदन क्रमांक/दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	दुर्घ उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., टिटावद	661 / 30-7-1982	1849 / 31-3-2023
2.	दुर्घ उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., नावदा	2754 / 22-10-2014	1845 / 31-3-2023
3.	दुर्घ उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पचोला	607 / 30-7-2014	1850 / 31-3-2023
4.	दुर्घ उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बडगोदा	2789 / 15-6-2015	1846 / 31-3-2023
5.	दुर्घ उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., डालरिया	2773 / 15-6-2015	1848 / 31-3-2023
6.	दुर्घ उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सिहावद	759 / 20-10-1983	1851 / 31-3-2023

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1962 के नियम 57(1)(सी/ग) के अंतर्गत के उक्त सहकारी संस्थाओं के समस्त दस्तावेजों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे समिति के विरुद्ध अपने समस्त दावों की इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दो माह के अंदर मय-प्रमाण के मुझे लिखित रूप में प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में सदस्यगण/साहूकारण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित के दायित्वाधीन होंगे. यदि दो माह कि अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा मान्य नहीं किया जावेगा. तदानुसार समिति की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयंमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत समझे जावेंगे तथा समिति के समस्त लेनदारी/देनदारी/अस्तियों का अंतिम रूप से निराकरण मेरे द्वारा कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 16 नवम्बर 2024 को मेरे द्वारा जारी किया गया है.

सुधीर जैन, परिसमापक एवं उप अंकेक्षक.

(G-324)

इंदौर, दिनांक 18 नवम्बर 2024

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज के नियम, 1962 के उपनियम 57(1) (सी/ग) के अन्तर्गत]

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला इन्दौर के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज, अधिनियम, 1960 की धारा 69(2) के अंतर्गत निम्न सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाई जाकर धारा 70(1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्र./दिनांक	परिसमापन का आदेश क्रमांक/दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	अदित गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या., इन्दौर	DRIMR/579 / 28-7-1997	1264 / 30-6-2021
2.	गौकूल गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या., इन्दौर	DRIMR/582 / 8-6-1994	1265 / 30-6-2021
3.	अरावली गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या., इन्दौर	591 / 20-11-1995	1267 / 30-6-2024
4.	म.प्र. प्रथम वाहिनी गृह निर्माण, इन्दौर	690 / 8-7-1997	2903 / 3-8-2015
5.	हरि गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या., इन्दौर	706 / 28-10-1997	4862 / 15-9-2010
6.	श्री संस्कार गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या., इन्दौर	708 / 11-2-1997	4862 / 15-9-2010

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1962 के नियम 57(1)(सी/ग) के अंतर्गत के उक्त सहकारी संस्थाओं के समस्त दस्तावेजों को एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि वे समिति के विरुद्ध अपने समस्त दावों की इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दो माह के अंदर मय-प्रमाण के मुझे लिखित रूप में प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में सदस्यगण/साहूकारण किसी भी लाभ के बांटवारे से वंचित के दायित्वाधीन होंगे। यदि दो माह कि अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा मान्य नहीं किया जावेगा। तदानुसार समिति की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयंमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत समझे जावेगे तथा समिति के समस्त लेनदारी/देनदारी/अस्तियों का अंतिम रूप से निराकरण मेरे द्वारा कर दिया जावेगा।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 18 नवम्बर 2024 को मेरे द्वारा जारी किया गया है।

(G-325)

के. के. जमरे, परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक,

कार्यालय, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक, सहकारी संस्थाएं, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश

दिनांक 23 नवम्बर 2024

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज के नियम, 1962 के उपनियम 57 सी के अन्तर्गत]

उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला सीहोर द्वारा निम्न सहकारी संस्थाओं को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकार धारा 70 (1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है, संस्थाओं को विवरण इस प्रकार है:-

क्र.	संस्था का नाम	तहसील	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापन में लाने का आदेश क्रमांक/दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	कृषक विकास बीज सह. संस्था मर्या., खण्डवा.	सीहोर	731 / 4-8-2015	1066 / 16-12-2024
2.	बुनकर सहकारी संस्था, मर्यादित, सौठी	श्यामपुर	1396 / 1-4-2019	1066 / 16-12-2024
3.	श्री बालाजी प्राथमिक सह. उपभोक्ता भंडार मर्या., कस्बा, सीहोर.	सीहोर	1812 / 26-8-2016	1066 / 16-12-2024

अतः, मैं, चंद्रलेखा तिवारी, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, सहकारी संस्थाएं, जिला सीहोर एवं उक्त संस्थाओं का परिसमापक, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (सी) के अंतर्गत यह सूचना प्रसारित करती हूँ कि उक्त सहकारी संस्थाओं के प्रति कोई दावे या आपत्ति या रिकॉर्ड हो तो वे सूचना—पत्र जारी करने के दिनांक से दो माह की समयावधि में मुझे कार्यालय, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला सीहोर में मय—प्रमाण के लिखित में प्रस्तुत करें, समयावधि पश्चात् प्राप्त दावे या आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा तथा संस्था के परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत कर दिया जावेगा।

यह भी सूचित किया जाता है कि उपरोक्त संस्था के कर्मचारी सदस्य/सक्षम पदाधिकारी के पास कोई रिकॉर्ड परिसम्पत्ति या नगदी हो तो उसे तत्काल मेरे पास जमा करावें अन्यथा उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

(G-326)

चंद्रलेखा तिवारी, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक.

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी के नियम, 1962 के उपनियम 57 सी के अन्तर्गत]

उप—पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला सीहोर द्वारा निम्न सहकारी संस्थाओं को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 (1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है, संस्थाओं का विवरण इस प्रकार है:—

क्र.	संस्था का नाम	तहसील	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापन में लाने का आदेश क्रमांक/दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	दुर्घ उत्पा. सह. संस्था मर्या., चीचली	भैरूंदा	1778 / 10-7-2014	1066 / 16-12-2024
2.	दुर्घ उत्पा. सह. संस्था मर्या., जाटमुहाई	भैरूंदा	1638 / 27-9-2012	1066 / 16-12-2024
3.	दुर्घ उत्पा. सह. संस्था मर्या., किशनुपर	भैरूंदा	1636 / 27-9-2012	1066 / 16-12-2024
4.	महिला दुर्घ उत्पा. सह. संस्था मर्या., कोठरा	भैरूंदा	1810 / 24-11-2014	1066 / 16-12-2024
5.	दुर्घ उत्पा. सह. संस्था मर्या., मण्डी	भैरूंदा	1665 / 29-2-2015	1066 / 16-12-2024
6.	दुर्घ उत्पा. सह. संस्था मर्या., कोठरा	बुदनी	1273 / 23-1-2004	1066 / 16-12-2024
7.	दुर्घ उत्पा. सह. संस्था मर्या., माथनी	बुदनी	1249 / 27-1-2003	1066 / 16-12-2024

अतः, मैं, रोहित नागर, सहकारी निरीक्षक, सहकारी संस्थाएं, जिला सीहोर एवं उक्त संस्थाओं का परिसमापक, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (सी) के अंतर्गत यह सूचना प्रसारित करती हूँ कि उक्त सहकारी संस्थाओं के प्रति कोई दावे या आपत्ति या रिकॉर्ड हो तो वे सूचना—पत्र जारी करने के दिनांक से दो माह की समयावधि में मुझे कार्यालय उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला सीहोर में मय—प्रमाण के लिखित में प्रस्तुत करें, समयावधि पश्चात् प्राप्त दावे या आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा तथा संस्था के परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत कर दिया जावेगा।

यह भी सूचित किया जाता है कि उपरोक्त संस्था के कर्मचारी सदस्य/सक्षम पदाधिकारी के पास कोई रिकॉर्ड परिसम्पत्ति या नगदी हो तो उसे तत्काल मेरे पास जमा करावें अन्यथा उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

(G-327)

रोहित नागर, सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक.

कार्यालय, परिसमापक, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला नर्मदापुरम, मध्यप्रदेश

नर्मदापुरम, दिनांक 1 जनवरी 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 57 (ग) के अन्तर्गत]

कार्यालय, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला नर्मदापुरम के द्वारा निम्नलिखित सहकारी समितियों को मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70(1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है—

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक	दिनांक	आदेश क्रमांक	दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	जय श्रीराम साख सहकारी समिति मर्या., किसनपुर	3339	29-10-2016	337	7-3-2015
2.	सहकारिता विभाग कर्मचारी साख समिति मर्या., होशंगाबाद	2222	9-10-1983	824	7-7-2020
3.	दुर्घ उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बमुरिया	2826	4-3-2005	824	7-7-2020
4.	तवा रेत खदान श्रम ठेका सहकारी समिति मर्या., बरीरटोला	3259	1-12-2015	433	4-10-2018
5.	माँ रेवा कम्प्यूटर प्रशिक्षण एवं मुद्राणालय समिति मर्या., होशंगाबाद.	2909	22-7-2007	824	17-7-2024
6.	जन जाति उन्नत बीज सहकारी समिति मर्या., बानापुरा	2729	26-2-2009	337	7-3-2015
7.	संयुक्त कृषि सहकारी समिति मर्या., डाबका	2069	23-9-1974	3013	23-9-2017
8.	आदिवासी सामुहिक कृषि सहकारी समिति मर्या., बोरी	2053	6-9-1971	3013	23-9-2017
9.	आगम चेतना गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या., सिवनीमालवा	2432	15-6-1994	1734	2-9-2024
10.	माँ रेवा उन्नत बीज एवं कृषि आदान समिति मर्या., सांगाखेड़ाकंला	3229	17-6-2015	4332	4-10-2018
11.	दुर्घ उत्पादक सहकारी समिति मर्या., भिलाडियाकंला	2804	13-4-2004	691	8-4-2021

अतः मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 के नियम 57 (ग) के अंतर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को सूचना के प्रकाशन दिनांक से 02 माह के अदर मय-प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखित रूप से कार्यालय, उप पंजीयक, सहकारिता, जिला नर्मदापुरम में प्रस्तुत कर सकते हैं। त्रुटि की दशा में साहुकारगण किसी भी लाभ के बंटवारें से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे यदि 02 माह की अवधि में किसी दावेदार कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखा-पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये समझे जायेगे।

(G-328)

उमेश यादव, उप पंजीयक।

कार्यालय, परिसमापक, हरिहर बारदाना सहकारी समिति मर्यादित, रुधि, मध्यप्रदेश

खण्डवा, दिनांक 17 दिसम्बर 2024

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं, नियम, 1962 के नियम, 57 (ग) के अन्तर्गत]

क्र.-परि.-2024-Q-1.—हरिहर बारदाना, सहकारी समिति मर्यादित, रुधि, जिसका पंजीयन क्रमांक-104871, दिनांक 19-7-2001 है, को उप रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला खण्डवा के आदेश क्रमांक-विधि-परि.-2024-1171, दिनांक 17-12-2024 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70(1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी नियम, 1962 के नियम 57 (ग) के अंतर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है, कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अंदर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखित रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं। यदि 2 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया, तो बाद में उसका दावा (कलेम) मान्य नहीं किया जावेगा, एवं संस्था की लेखा-पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किए गए समझे जावेंगे।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 17 दिसम्बर 2024 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-329)

कार्यालय, परिसमापक, निमाड क्रय-विक्रय विपणन, सहकारी संस्था मर्या., खण्डवा, मध्यप्रदेश

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएँ, नियम, 1962 के नियम 57 (ग) के अन्तर्गत]

क्र.-परि.-2024-Q-1.-निमाड क्रय विक्रय विपणन सहकारी संस्था मर्या., खण्डवा, जिसका पंजीयन क्रमांक-1749, दिनांक 7-2-2000 है, को उप-रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला खण्डवा के आदेश क्रमांक-विधि-परि.- 2024-1171, दिनांक 17 दिसम्बर 2024 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70(1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी नियम, 1962 के नियम 57 (ग) के अंतर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है, कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अंदर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखित रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं। यदि 2 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया, तो बाद में उसका दावा (कलेम) मान्य नहीं किया जावेगा, एवं संस्था की लेखा-पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किए गए समझे जावेंगे।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 17 दिसम्बर 2024 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-330)

कार्यालय, परिसमापक, जिला सहकारी कृषि और

ग्रामीण विकास बैंक कर्मचारी साख सहकारी समिति मर्या., खण्डवा, मध्यप्रदेश

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएँ, नियम, 1962 के नियम 57 (ग) के अन्तर्गत]

क्र.-परि.-2024-Q-1.-जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक कर्मचारी साख सहकारी समिति मर्या., खण्डवा, जिसका पंजीयन क्रमांक-1234, दिनांक 11-3-1981 है, को उप रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला खण्डवा के आदेश क्रमांक-विधि-परि.-2024-1171, दिनांक 17-12-2024 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70(1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी नियम, 1962 के नियम 57 (ग) के अंतर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है, कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अंदर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखित रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं। यदि 2 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया, तो बाद में उसका दावा (कलेम) मान्य नहीं किया जावेगा, एवं संस्था की लेखा-पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किए गए समझे जावेंगे।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 17 दिसम्बर 2024 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-331)

गोविन्द प्रसाद नागवंशी, सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक.

इसे वेबसाइट www.govt_press.nic.in से
भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजापत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 4]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 24 जनवरी 2025—माघ 4, शक 1946

भाग 3 (2)

सांख्यिकीय सूचनाएँ

(कुछ नहीं)